

TEXT DARK AND LIGHT

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176114

UNIVERSAL
LIBRARY

OM
LECTURES ON THE RIGVEDA

CONTAINING A DISCUSSION
ON THE QUESTIONS
OF

1. The Rigveda's being A recension, and 2. About
the attribution of its authorship.

PART I

BY

BHAGWADDATTA. B. A.,

PROFESSOR OF VEDIC THEOLOGY AND SANSKRIT AND
SUPERINTENDENT OF THE RESEARCH DEPARTMENT
D.A.V. COLLEGE, LAHORE,

SEPTEMBER 1920

*First Edition }
1000 Copies. } { Price 3 Shillings,*

ओ३म्

दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत-ग्रन्थमाला ।

अनेक विद्वानों की सहायता से

भगवद्गति

संस्कृताध्यापक वा अध्यक्ष रीसर्च-विभाग

दयानन्द महाविद्यालय, लाहौर द्वारा

सम्पादित ।

ग्रन्थाङ्क २ ।

श्रीमद्यानन्द महाविद्यालय संस्कृतग्रन्थमाला सं० २

श्रोतुम्

ऋग्वेद परव्याख्यान

शर्थात्

ऋग्वेद शाखा है वा नहीं, वेद किसने
बनाया ? इत्यादि विषयों पर विचार ।

प्रथम भाग

लेखक

भगवद्गति वी० ए०

संस्कृताध्यापक दयानन्द कालेज, लाहौर ।

आर्य सम्बत १९६०द४३०२०

विक्रम सं० १९७७

सन् १९१० ई०

दयानन्दाच्छ ३७

प्रधमधार १००० प्रति]

[मूल्य ११८ ई०

विद्याप्रकाश यन्त्रालय चड्डह मुहर्रा लहपुर में छपा ॥

Printed by Bhairo Prasada,
MANAGER VIDYA PRAKASHA PRESS LAHORE,
And Published by
THE RESEARCH DEPARTMENT D.A.V. COLLEGE, LAHORE.

The publications of this series can also be had of:—
Messrs Luzac & Co 46 Great Russel street
London W. C.

विषय-सूची ।

शाखा-प्रकरण ।

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| (क) भूमिका | ... | ... | ... | १-६ |
| (ख) पूर्वपक्ष के छः प्रमाण | ... | ... | ... | २ |
| (छ) इन विचारों की समालोचना-प्रथम प्रमाण | ... | ... | ... | ३ |
| (३) “शाकलाद्वा” दूसरा प्रमाण—कौमुदी आदि के कर्त्ताओं के लेख | ... | ... | ... | ७ |
| (४) इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और उपर्युक्त सब मतों का खण्डन । | ... | ... | ... | ८ |
| (५) भाष्यकार पतञ्जलि की सम्मति | ... | ... | ... | ९.० |
| (६) ऋृक् प्रातिशाख्य के कर्त्ता शौनक का लेख । | ... | ... | ... | ९.३ |
| (७) इसी अभिप्राय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिका में | ... | ... | ... | ९.५ |
| (८) यजुः प्रातिशाख्य में भी यही नियम हैं | ... | ... | ... | ९.५ |
| (९) तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते | ... | ... | ... | ९.६ |
| (१०) तत्सम्बन्धी पाणिनीय सूत्र में अनार्ष का अर्थ | ... | ... | ... | ९.६ |
| (११) शाकल्य कितने हुए हैं ? | ... | ... | ... | १० |
| (१२) निरुक्त में शाकल्य | ... | ... | ... | २१ |
| (१३) स्थविर शाकल्य | ... | ... | ... | २३ |
| (१४) विदग्ध शाकल्य | ... | ... | ... | २४ |
| (१५) विकृतिवल्ली का लेख | ... | ... | ... | २५ |
| (१६) सर्वानुक्रमणभाष्य में षट्गुरुशिष्य | ... | ... | ... | २८ |
| (१७) आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन । | ... | ... | ... | २८ |
| (१८) आश्वलायन श्रौतसूत्र के भाष्य में गार्यनारायण | ... | ... | ... | ३१ |
| (१९) विकृतिवल्ली की टीका में गङ्गाधर | ... | ... | ... | ३१ |

ऋग्वेद किस ने बनाया ?

| | | | |
|--|-----|-----|----|
| (२०) पूर्वपक्ष । मन्त्रकृत शब्द | ... | ... | ३४ |
| (२१) उत्तरपक्ष | ... | ... | ३६ |
| (२२) सायण की सम्माति और उस की भूल | ... | ... | ३७ |
| (२३) मन्त्रकृत शब्द का सत्यार्थ | ... | ... | ३८ |
| (२४) कार अन्त वाले अनेक शब्द | ... | ... | ३८ |
| (२५) उपर्युक्त अर्थों में ही मन्त्रकृत शब्द | ... | ... | ३९ |
| (२६) द्वितीय पूर्वपक्ष । मन्त्रद्रष्टा शब्द | ... | ... | ४१ |
| (२७) उत्तरपक्ष | ... | ... | ४१ |
| (२८) तै० सं०, मै० सं० और ऐ० ब्रा० की कथाएं | ... | ... | ४२ |
| (२९) दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश | ... | ... | ४३ |
| (३०) नाभानेदिष्ट का काल | ... | ... | ४४ |
| (३१) एक और प्रमाण | ... | ... | ४५ |
| (३२) ऋषि दयानन्द की सम्माति | ... | ... | ४६ |
| (३३) इस की पुष्टि में और विचार | ... | ... | ४७ |
| (३४) अनुक्रमणी की एक और साक्षी | ... | ... | ५० |
| (३५) इन परिणामों की परीक्षा | ... | ... | ५१ |
| (३६) एक सूक्त के सौ ऋषि | ... | ... | ५२ |
| (३७) एक ही मन्त्र के भिन्न ऋषि | ... | ... | ५३ |
| (३८) ऋग्वेद रैपीटिशन्स में ब्लूमफील्ड का लेख | ... | ... | ५३ |
| (३९) उस पर विचार | ... | ... | ५६ |
| (४०) सर्वानुक्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता | ... | ... | ५८ |
| (४१) ऋग्वेद में प्राचीन और नवीन ऋषियों का वर्णन | ... | ... | ६८ |
| (४२) मन्त्ररचना में वैदिक ऋषियों की साक्षी | ... | ... | ७१ |
| (४३) सत्यार्थ का अन्वेषण | ... | ... | ७४ |

| | |
|---|----|
| (४४) ब्रह्म पद | ७६ |
| (४५) ऋग्वेद शब्दार्थसम्बन्धरूप से किसी मनुष्य की कृति नहीं | ७७ |
| (४६) ग्रिफिथ का अर्थ | ७७ |
| (४७) सायन के भ्रम का कारण | ७८ |
| (४८) इन मन्त्रों के अनुवाद में ग्रिफिथ की भारी भ्रान्ति ८१ | |
| (४९) सायण का अर्थ | ८२ |
| (५०) दयानन्द सरस्वती का अर्थ | ८४ |
| (५१) इस मन्त्र पर आ० बै० कीथ की टीका और टिप्पणी ८८ | |
| (५२) ज्ञान-सूक्ष्म | ९१ |

शुद्धिपत्रम् ।

अतीव साधारण अशुद्धियाँ जो हृष्टि पड़ते ही ज्ञात हो जायें, यहाँ नहीं लिखी गईं ।

| पृ. ए. | अशुद्ध | शुद्ध |
|--------|-------------|----------------|
| ६, ८ | यदिग्र० | यदाग्र० |
| ७, १६ | करणव | करव |
| १४, १५ | उकारश्वे० | उकारश्वे० |
| १५, १४ | aprika अपूक | aprikta अपृक्त |

| | | |
|------------|--------------|-------------------|
| १६, १६ | ० विती | ० विति |
| २१ | काठक | काठक सं० |
| १७, ८ | आये वैदिक | आयेओकारान्त वैदिक |
| ८ | आगे इति | आगे भी इति |
| २५, ८ | कीथ | कीथ |
| २७, १८ | रामयणादि | रामायणादि |
| ३०, ७ | गें | में |
| ३२, ३ | चातस्य | चातस्य |
| ३७, १५ | मन्त्रकृत | मन्त्रकृत |
| ४०, ७ | की | का |
| ४२, २२ | मैत्रायणी | मैत्रायणी |
| ४७, ८ | आसा | आसः |
| ४८, १२ | विद्यमान | विद्यमान |
| ५८, १४ | ०न्वकाश | ०न्वकाश |
| ६०, १३ | स्थिती | स्थिति |
| ६१, १२, १३ | महीदास | महिदास |
| ६२, १ | पाणिनी ने भी | पाणिनि ने भी |
| १३ | “दृष्टं | “दृष्टं |
| ७२, १६ | सम्बन्ध | सम्बन्ध |
| ७८, २० | विषद | विशद |
| | डियरी | डियरी |



ओ३म्

भूमिका ।

येना पावक चन्नसा भुरगयन्तञ्जनाँ अनु ।
त्वं वस्त्रण पश्यासि ॥ ऋ० १५०६ ॥

अर्थ—‘हे पवित्रकारक, सर्वोत्तम जगदीश्वर ! जिस विज्ञान प्रकाश से आप धारणा करने वाले लोकों, और मनुष्यों को अच्छे प्रकार देखते हैं, उस विज्ञान के प्रकाश से मुझे भी संयुक्त कीजिये ।’ महाराज ! आप ही मेरे गुरु और परमाध्यापक हो । आप ही से सब ज्ञान मिला है, सो हे दयानिधि ! मेरे दोषों को दूर करके मुझे सत्ययुक्त और निर्मल-बुद्धि करदें, जिस से कि मैं आप की सत्य वाणी वेद का प्रचार पुनरपि संसार में करने के योग्य हो जाऊं ।

२४ नवम्बर सन् १९१६ शुक्रवार के दिन, लाहौर आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर मैंने वेदों के शाखा विषय पर एक व्याख्यान दिया था । तदनन्तर इस विषय पर और भी सामग्री एकत्र करता रहा । पुनः, आश्विन सम्वत् १९७४ में ‘ऋग्मन्त्रव्याख्या’ की भूमिका में मैंने लिखा था—“शाखा विषय पर सुविस्तृत विचार, वेदमन्त्रों की गणना का प्रश्न और एक मन्त्र के कई वेदों में आने आदि अनेक ज्ञातव्य विषयों का लेख एक पृष्ठक पुस्तक में करना चाहता हूं । उस के लिये सामग्री एकत्रित की जा चुकी है ।” तत्पश्चात् ‘पञ्चपटलिका’ की भूमिका के अन्त में भी इसी सम्बन्ध में एक वचन लिखा था । इन्हीं प्रतिज्ञाओं के अनुसार ईश्वर की अपार दया से मैं आज इस ग्रन्थ के प्रथम भाग को जनता के प्रति धरता हूं । इस प्रथम भाग में दो ही विषयों का वर्णन हो सका

है, और यह भी संक्षेपतः । तथापि मूल विचार मैंने यहाँ रख दिये हैं । ये विचार क्षेत्र हैं ? इनकी परीक्षा पाठक स्वयं कर सकेंगे ।

शाखा विषय के सम्बन्ध में इतना और कहना है । आर्यतिहा-सानुसार जो ग्राहणादि ग्रन्थों में मिलता है, सृष्टि के आरम्भ से ही ऋग आदि वेद उपस्थित थे । वेदों में भी अनेक स्थलों पर यह साक्षी मिलती है कि वेद सदा से पृथक् २ रुप में विराजमान रहे हैं । इतनी पुरानी साक्षी की विद्यमानता में 'कोई मन्त्र-काल था, पश्चात् संहिता काल आया' अथवा 'व्यास ने चार वेद संहिताओं का विभाग किया' ऐसा कहना प्रमाणशून्य कल्पना का प्रकाश करना है । वह आदि भूग्रसंहिता जो प्रजापनि परमात्मा ने अग्नि ऋषि को दी और उस से ब्रह्मा भूषि तक पहुंची, कहाँ चली गई ? इसी प्रश्न को लेकर मैंने शाखा विषय पर खोज आरम्भ की थी । उस का परिणाम ही इस ग्रन्थ का शाखा-प्रकरण है ।

शाखा-प्रकरण के रूप जाने के पश्चात् ही कॉलेज महाराय द्वारा सम्पादित 'संहित जैमिनीय ब्राह्मण' * मुझे प्राप्त हो सका । उस में शाखा-प्रकरण के पूर्वपत्र के दूसरे प्रमाण पर बड़ा प्रकाश उल्ला गया है । वह दूसरा प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण से उद्भूत किया गया था । उस में आवे शाखा का शब्द पर ही सारा विवाद था । जैमिनीय ब्राह्मण ने सब विषय मरल कर दिया है । उस में यह पाठ है—

तस्यैष श्लोको—

यदस्य पूर्वम्, अपरं तदस्य, यद्रस्यापरं तद्रस्य पूर्वम् ।

अहेतिव सर्पणं शाकलस्य न विजानामि यतरत्पुरस्तादिति ॥

शाकलो ह गौयायनो यज्ञं मीमान इयाय ॥२५८ ॥

*Das Jaiminiya-Brahmana in Auswahl, von W.Caland, Amsterdam. Johannes Muller. November 1919.

ऐतरेय वाक्यग्रंथ में “यदस्य” वचन के लिये “यत्तगाथा” शब्द आया है और वहाँ “शक्लोक”। प्रतीत होता हैं ये शब्द समानार्थक हैं। पुणः ऐतरेय में “विजातन्ति” पाठ है और जैमिनीय में “विजातन्ति”। ग्रन्थ से बहु कार द्रष्टव्य वाचन यह है कि जैगिनीय ब्राह्मण में इस वाक्य में अपेक्षा ‘शाकल’ शब्द का अर्थ अष्टु किया है। वहाँ कहा है “शाकलो हूं गौपायनः” अर्थात् ‘गोप की फूल यें होने वाला शाकल’। इस रोमाघात का अर्थ तो सर्वथा असत्य हो गया। अपेक्षा ‘शाकल गौपायन’ पर विचार। ऋग्वेदीय साहित्य * में चार गौपायनों का वर्णन आता है। वे हैं (१) बन्धु (२) सुबन्धु (३) श्रुतबन्धु (४) विग्रवन्धु। देखो सर्वानुक्रमणी ५। २४ और १०५७ पर। यदि जैमिनीय ब्राह्मण में इन्हीं में से किसी का वर्णन है तो शास्त्रात्मकरण में लिखे गये अन्य सब प्रमाणों को दृष्टि में रखकर यहाँ भी शाकल, शाकल्य का शिष्य वा उसकी शिक्षा का मानने वाला होगा। हम इस वाक्य का अब अज्ञरशः वह अर्थ नहीं करेंगे जो अन्य के अन्दर कर द्युके हैं। वहाँ ‘शाकल्य की शिक्षा’ के स्थान में ‘शाकल्य का शिष्य’ समझता चाहिये। इस प्रमाण से हरिप्रसाद जी का पक्ष भी कोई पक्ष नहीं होता। यदि वे अन्य सब प्रमाणों को छोड़ कर केवल इसी प्रमाण से ‘शाकल’ ऋषिविशेष का अस्तित्व सिद्ध करना चाहें तो उन्हें अवश्य ही गौपायनों की पूर्वोक्त चार ऋषियों से अधिकता सिद्ध करनी होगी।

सामवेदीय आर्येयब्राह्मण २। १२६ में भी ‘शाकलम्’ पाठ आया है। वहाँ सायण ने भी ‘शाकलनाम्ना ऋषिणा दृष्टम्’ अर्थ किया है। उसी भाव से ताराज्यब्राह्मण में ‘शाकलं भवति’ १३। ३। ६ कहा है। ऐसा कह कर अगले ही वाक्य में इसका अर्थ भी स्वयं खोल दिया है—

‘एतेनवैशकलः पञ्चमेऽहनिप्रत्यातिष्ठप्रातीतिष्ठुति शाकलेनतुष्टुवानः’

१३ । ३ । १० ॥

अर्थात् “अर्वा सोम” (साम १ । ६ । २ । ७ । ऋचा से शकल ऋषि ने अमुक यज्ञ में अमुक कर्म किया । अतः यह मन्त्र शाकल साम हुआ । यही शकल शाकल्य का पिता है । इस प्रमाण से भी शाकल शब्द से किसी ऋषि विशेष के निज नाम को समझना ठीक नहीं ।

वस्तुतः अन्तिम पंरिणाम यही है कि शाकलसंहिता, शाकल्य के पदपाठ से ही कहाँ जाने लगी थी । शाकल कोई व्यक्ति हो वा न हो, उस के प्रवचन मे इस ऋग्वेद को शाकलसंहिता कदापि नहीं कहा, गया इतिहिक ।

शाखा-प्रकरण में जो ऋक् प्रातिशाख्य के पाठ दिये गये हैं वे या तो चौथ्या संस्करण से हैं या मैक्समूलर के संस्करण से । पूर्वावस्था में पठलों और पृष्ठों का पता दिया गया है, और उत्तरावस्था में कोष्ठों में मूत्राङ्क रखा है ।

एक और बात में अवश्य कह देता हूँ । संसार में वेद-विचार करने वाले तीन भागों में विभक्त हो सकते हैं ।

(१) आर्यावर्तीय इतिहास के मध्यम-कालीन वाङ्मय के अनुसार वेद को लगाने वाले सज्जन (२) पाश्चात्य लेखक और (३) स्वामी दयानन्द सरस्वती की शैली का अनुकरण करने वाले । इन में से प्रथम संख्यान्तर्गत पुराने ढङ्ग के परिडत तो वेदाध्ययन को बहुत काल से प्रायः छोड़ चुके हैं, अतः उनके विषय में कुछ कहना निष्फल है । द्वितीय श्रेणी के लोग अर्थात् पाश्चात्य लेखक इस समय वेद-विचार में बहुत व्यग्र हैं, पर वे भी एक ही हृषि से देख रहे हैं और अपने विपक्षियों के लेखों का कभी ध्यान नहीं करते । कदाचित् यद्दी कारण है कि प्राचीन सभ्यता-अनभिज्ञ कुछ जनों को छोड़ के अन्य सब एतदेशीय विद्वान् इन्हें पक्षपाती समझते हैं ।

ये लोग प्रत्येक बात को उसी रंग में देखते हैं, जैसे वह पश्चिम में हो चुकी है। परलोकगत बिहारीलाल शास्त्री ने 'दि वेदासपेगड देयर आङ्गास् एगड उपाङ्गास्' नामक एक ग्रन्थ आङ्गलभाषा में लिखा था। उस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द ही के वाक्य इधर उधर रखे गये हैं। उन्हें भी लेखक उचित क्रम नहीं देसका। हमारी इष्टि में वह ग्रन्थ विद्वत्तापूर्वक नहीं लिखा गया। अस्तु, उसी ग्रन्थ की समालोचना करते हुए क्षण ने पाश्चत्यों की प्रकृति दिखाई है। वह लिखता है—We are familiar with the strange works found in old libraries which expound all science, human and divine, in the light of the Bible, and which in each generation reinterpret the holy scripture to make it conform with the ideas of the day. अर्थात् 'बाईबल में सब मानव और दैव ज्ञान सिद्ध करने के लिये उसके भाष्यकार उसके अर्थ को समय से पर पलटते गये' ऐसे ही ग्रन्थों से उस ने बिहारी-लाल के ग्रन्थ को उपमा दी है। यह सत्य है कि यहां भी बहुत से सम्प्रदायी लोगों ने समय से पर ब्रह्मसूत्रों से ही अपना पक्ष सिद्ध करना चाहा। पर इस से यह कभी नहीं सिद्ध होता कि सारे विचारक ही ऐसे हैं, और उन के ग्रन्थ इसी भाव से लिखे जाते हैं। हम इस के विपरीत कह सकते हैं कि पाश्चात्य लोग आर्यावर्तीय सभ्यता वा इस के बाड़प्रय को किन्हीं विशेष कारणों से बहुत गिराना चाहते हैं, देखो। मैकालयादि सुप्रसिद्ध लोगों ने इस विषय में क्या कहा था।

अस्तु, इन बातों को छोड़ता हूं। अब तो सत्य का अन्वेषण होगा और सब की बुद्धि की यथार्थ परीक्षा होगी।

मेरे विचार तीसरी श्रेणी के ही हैं। ऐसा होते हुए भी यथासम्भव मैंने पूर्व-पक्ष को पूर्ण-प्रकट करके उस पर विचार किया है। यही शैली इस ग्रन्थ के अगले भागों में भी रहेगी। उन में वे मौखिक

(६)

वाद भी विचारे जायेंगे, जिन पर कि पाश्चात्य लेखकों का आधार है, यथा भाषाविज्ञान इत्यादि ।

ऋग्वेद के मन्त्रों, पदों और अन्तर्गतों की गणना कर सुकाहूं। गणना विषय पर कुछ हस्तलेखित ग्रन्थों का ही देखना शोध है। इनके आगे छपने से अनेक रहस्य उत्पन्न होंगे ।

इस ग्रन्थ के लियने में हंसगाज जी पुस्तकाध्यक्ष लालचन्द्र पुस्तकालय ने मुझे बहुत सहायता दी है। मित्र रामगोपाल जी शास्त्री भी भव्य २ पर अपनी सम्मति देते रहे हैं। इन दोनों महाशयों का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ ।

सल्लानगणा विषयक होकर दोषों से सूचित करें। अलमति-विस्तरेण वेदविचाररेषु । इत्योग ।

| | |
|---|----------------|
| दयानन्द में० वै० बालेज लालचन्द्र, अनुसन्धान पुस्तकालय लबपुर, श्रावण पूर्णिमा शनि वि० सं० १६७७ | } } भगवद्गत |
|---|----------------|

ऋग्वेद परव्याख्यान

लेखक की अन्य पुस्तकें।

(१) ऋषि दयानन्द स्वरचित (लिखित वा कथित) जीवन चरित । मूल्य ।)

(२) ऋग्मन्त्रव्याख्या । ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों की व्याख्या । मूल्य।—)

(३) ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, दो भागों में । मूल्य ॥॥≡)

(४) गुरुदत्तलेखावली । श्री पं० गुरुदत्त एम० ए० के अङ्गरेजी लेखों का आर्थ्यभाषानुवाद । (सहकारी अनुवादक श्री सन्तराम बी० ए०) । मूल्य ॥॥)

(५) पञ्चपट्टिलिका, अर्थात् अर्थर्ववेद का तृतीय लक्षण ग्रन्थ मूल्य ।)

ऋग्वेद पर व्याख्यान शाखा-प्रकरण ।

सम्पति जो ग्रन्थ ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है उसे प्रायः शाकल वा शाकलक संहिता कहते हैं । यह प्रटीति प्राचीन काल से चली आई है । भगवान् कात्यायन अपनी ऋग्वेद सर्वानु-क्रमणी के प्रारम्भ में लिखते हैं—

अथ ऋग्वेदान्नाये शाकलके सूक्तप्रतीक
ऋक्संख्य * ऋषिदैवतच्छन्दांस्यनुकमिष्यामः ।

अर्थात् शाकलक ऋग्वेदान्नाय में इत्यादि । तदनुसार आर्यावर्तीय पाणिडत इसे शाकल संहिता कहते आये हैं । शाकल के साथ शाखा शब्द का प्रयोग प्राचीन नहीं प्रत्युत मध्यम कालीन है । Govt collection of mss. दक्षिण कालेज पूना के नं० १ में यह प्रयोग आया है । यह हस्तलिपि शारदा अक्षरों में है । इस में भी ऋग्वेद की समाप्ति पर यह पाठ नहीं । वहाँ

* निर्णयसागरादि यन्त्रालय प्रकाशित ग्रन्थों में “संख्या” पाठ छपा है । मद्रास गर्वनमेयट पुस्तकालय के प्रायः हस्तलिखित पुस्तकों में भी यही पाठ है । पूना संग्रह के किसी २ ग्रन्थ में “संख्या” पाठ है । हम ने प्रो० मैफडानल के अनुसार ‘संख्या’ पाठ शुद्ध माना है । कात्यायन की शैल्यनुसार चाहिये भी यही । इस का कारण आगे स्पष्ट होगा । (देखो उक्त साहच का संस्करण; पृ० x) ।

“ऋग्वेदास्त्राये शाकलके” ही है। परन्तु आरण्यक के अन्त में जहाँ सारा ग्रन्थ समाप्त होता है आगामी पाठ है “इति श्री ऋग्वेदं शाकलके शाखायां दशममण्डले ऋग्वेदः खिलसहितसंहितारण्य सहितश्च सम्पूर्णस्समाप्तम्”। इसी प्रकार अर्वाचीन पाश्चात्य लेखक इस ऋग्वेद को sakala sakha or recension कहते हैं। उनके साथ अन्य एतदेशीय विद्वान् भी सहमत हैं। इन सब के मतानुसार कठ, कालापी, पिप्पलादादि शाखाओं के समान यह ऋग्वेद शाखा—विशेष अर्थात् शाकल शाखा का है।

उपर्युक्त परिणामों का कथन है कि शाकल शाखा का प्रवचनकर्ता शाकल ऋषि था। उस शाकल ऋषि का उल्लेख उन के प्रमाणानुसार निम्नलिखित स्थलों में मिलता है।

(१) शाकलाद्वा। अष्टाध्यायी सूत्र, ४। ३। १२८।

(२) अहेस्वि सर्पणं शाकलस्य न विजानन्ति।

(ऐ० ब्रा० १८५)।

(३) “पाणिनि मुनि से कुछ काल पीछे होने वाले व्यादि मुनि ने अष्टाध्यायी का व्याख्यान “संग्रह” नामक ग्रन्थ निर्माण किया है, उस के मंगलाचरण में उक्त दोनों (शाकल और शाकल्य) को भिन्न २ रूप से नमस्कार किया है। “नमामि शाकलाचार्यं शाकल्यं स्थविरं तथा”

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य में घड्गुरुशेष्य ने लिखा है।

शाकलस्य संहितैका वाष्कलस्य तथापरा।

(quoted in M. Mullers. H. A. S. L. p. 237.)

(५) आश्वलायन श्रौतसूत्रभाष्य में—

“शाकलस्य वाष्कलस्य चाम्नायद्यस्यैतदाश्व-
लायनसूत्रं नाम प्रयोगशास्त्रमित्यध्येतृप्रसिद्धं संबंध-
विशेषं घोतयति” ॥

(६) विकृतिवल्ली १। ४ की टीका में भट्टाचार्य गंडाधर
ने लिखा है ।

शाकलस्य शतं शिष्या नैष्ठिक ब्रह्मचारिणः ।

पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्ठाश्च कुम्बिनः ॥

शिशिरो वाष्कलः शाङ्को वातस्यश्वैवाश्वलायनः ।

पञ्चैते शाकलाः शिष्याः शाखा-भेद-प्रवर्तकाः ॥*

ऐसे ही श्लोक भागवतादि पुराण ग्रन्थों में आये हैं ।

इन विचारों की समालोचना ।

(१) प्रथम प्रमाण के सम्बन्ध में लेखकों की सम्पत्ति भिन्न २
है । सायणाचार्य ऐतरेयब्राह्मण के भाष्य में लिखता है—

“शाकलशब्दः सर्पविशेषवाची । शाकलना-
म्नोऽहेः सर्पविशेषस्य यथा सर्पं गमनं तथैवायम-
मिष्टोमः ।

* उपर्युक्त १; २; ३ और ६ प्रमाण को स्वामी हरिप्रसाद ने
अपने वेदसर्वस्व में उद्धृत किया है ।

अर्थात् शाकल शब्द सर्पविशेषं ची है । इसी शब्द पर वैदिक इंग्लैक्स में यह लेख है-

"SAKALA in the Aitareya Brahmana denotes the teaching of SAKALYA according to the St. Petersberg Dictionary. But Bohtlingk seems right in taking it as a kind of snake in that passage."

स्वामी हरिप्रसाद इस वचन का अर्थ करते हैं "जैसा इस का उपक्रम वैसा इस का उपसंहार, जैसा उपसंहार वैसा उपक्रम, सूर्य के समान शाकल की गति का उपक्रम और उपसंहार एक सा होने से भेद नहीं जाना जाता ।

प्रथम हम सायणाचार्य के अर्थ को लेते हैं । सायण शाकल का अर्थ सर्प-विशेष करता है । परन्तु इस स्थल को छोड़ कर अन्यत्र यह शब्द इस अर्थ में दिखाई नहीं देता । प्रतीत होता है आहिः शब्द को देख कर सायण ने सर्पवाची अर्थ कर दिया है । आहिः शब्द मेघ और सर्पादि अर्थों में आता है । उणादि सूत्र आडि श्रिहनिभ्यां हस्वश्च ४ । १३८ से पाणिनि मुनि इसे बनाते हैं । अर्वाचीन काल में यह ज़न्द आज़ि Azi, फारसी अफ़ि आदि में सर्प अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, परन्तु निघण्ठ में उपर्युक्त मेघार्थ (१। १०) के साथ इस का उदकार्थ (१। १२) भी दिया है । मेघार्थ स्वयं वेद से ही सिद्ध है । वृत्रेण गत आहिना विभ्रत् ऋ०। १०। ११३। ३ अर्थात् आच्छा-

दक मेघ से इत्यादि । वैदिक काल वा गाथा काल में कि जब यह वचन लिखा गया था, तब शाकल का अर्थ सर्प हो, यह कहीं दिखाई नहीं दिया । अतः सायण का अर्थ त्यज्य है ।

BOHTLINGK. ने सायण का अर्थ देख कर ही इधर उधर हाथ पैर मारे हैं । इसी का समर्थन मैकडानल और कीथ ने किया है । परन्तु सायणवत् यह अर्थ निस्सार ही है । राथ ने शाकल का अर्थ “शाकल्य की शिक्षा” किया है । सो यह अर्थ कुछ ठीक है । राथ का ऐसा अर्थ करना उस का स्वभाव है, क्योंकि वह प्रायः आर्यावर्तीय लोगों के दिये हुए किसी वचन के अर्थ का उन से विरुद्धार्थ ही करना चाहता है, अन्यथा उस का भाषा-विज्ञान किस अर्थ का ? यहां उस ने सायण के विरुद्ध अर्थ किया है परन्तु हो ठीक सा गया है ।

स्वामी हरिप्रसाद ने अहि का अर्थ सूर्य किया है । यह अर्थ प्राचीन काल में दिखाई नहीं देता । अर्वाचीन कोशों में अवश्य मिलता है । परन्तु मोनियर विल्यम्स के कोशानुसार सूर्य अर्थ में अहि का प्रयोग कहीं साहित्य में नहीं मिला * । अस्तु, वैदिक काल में यह अर्थ न था । हरिप्रसाद शाकल का अर्थ ऋषि विशेष करता है । ऐसा अर्थ करके वह इसी शाकल को शाखा का प्रवचन-कर्ता मानता है । यह अर्थ सत्य नहीं । अन्यत्र महाभाष्यादि में शाकलस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः

* पं० जयचन्द्र शास्त्री ने किसी नाटक में आया बताया था ।
एर ग्रन्थ-नाम ए स्थल उन्होंने नहीं बताया ।

दा १ १२७ ऐसा वचन आया है। इस विषय के अनेक उदाहरण-आगे दिये जायंगे। यहां शाकल का अर्थ शाकल्य की शिक्षा वा सूत्रादि है। यही अर्थ पूर्वोक्त गाथा में आया है। इस के स्पष्टीकरणार्थ हम मूलवाक्य का प्रयोजनीय भाग उद्धृत करके उस का अर्थ दे देते हैं।

स वा ऐषोऽग्निरेव यदाग्निष्टोमरतं यदस्तुवंस्त-
स्मादग्निस्तोमस्तमग्निस्तोमसन्तमग्निष्टोम इत्याचक्षते।

स वा ऐषोऽप्लवोऽनपरो यज्ञकर्तुर्यथा रथच-
क्रमनन्तमेवं यदिग्निष्टोमस्तस्य यथैव प्रायणं तथोद-
यनम्। तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते। यदस्य पूर्वमपरं
तदस्य यद्दस्यापरं तद्दस्य पूर्वम्। अहोरेव सर्पणं
शाकलस्य न विजानन्ति यतरत्परतदिति।

अर्थ—“वह निश्चय यह अग्नि ही (है) जो अग्निष्टोम (है) उस की जो स्तुति की, इस कारण अग्निस्तोम। अग्निस्तोम होते हुए अग्निष्टोम, यह कहते हैं।

वह निश्चय यह अपूर्व=आरम्भ रहित, अनपर=अन्तरहित यज्ञकर्तु (है) जैसे रथचक्र अनन्त (है) ऐसे जो अग्निष्टोम (वह भी अनन्त है)। उसका जैसा ही प्रायण=आरम्भ वैसा उदयन=अन्त। तो यह यज्ञगाथा अच्छे प्रकार गई जाती है। जो इस का पूर्व, अपर वही इसका। अथवा जो इस का अपर वही इस

का पूर्व । मेघ के समान गति शाकल्य की शिक्षा की नहीं जानते हैं ।”

कोई प्रश्न करे कि मेघ कहां से उत्पन्न होता है तो गाथाकार कहते हैं कि वार्ता रथचक्र के समान है । मेघ से वर्षा द्वारा समुद्रादि में जल आता है और वहां से पुनः मेघ बन जाता है । सो इस का न आरम्भ और न अन्त है ।

उपर्युक्त लेख से पता लग गया होगा कि इस प्रथम प्रमाण से शाकल कोई ऋषि विशेष सिद्ध नहीं होता । अब हम द्वितीय प्रमाण को लेते हैं ।

२. शाकलाद्वा । अष्टाध्यायी ४। ३। १२८ ।

इस पर भट्टोजीदीक्षित कौमुदी में लिखता है ।

“अग्न वोक्तेर्थे । पत्ते चरणत्वाद्बुद्ध् । शाकलेन प्रोक्तमधीयते शाकलास्तेषां सङ्घोङ्गो घोषो वा शाकलः । शाकलकः । लक्षणे क्लीवता ।

काशिका-विवरणपञ्चिका में जिनेन्द्रबुद्धि (७००-५०) का ऐसा लेख है—

“बुओऽपवाद इति । चरणलक्षणस्य शाकलशब्दस्य चरणलक्षणत्वात् । शाकला इति । शाकल्य शब्दाद् गर्गादियन्तात् करणवादिभ्यो गोत्र

(४।३।१११) इति प्रोक्तार्थेऽग्ना । आपत्यस्य च
तद्वितेनातीति (६।४।१५१) यलोपः । शाकल
इति स्थिते तदधीते तद्वेदेत्यग्ना (४।२।५६) ।
तस्य प्रोक्तात्त्वलुक (४।२।६४) शाकलाः । तेषां
सङ्घः शाकलः शाकलक इति वा ।

मितात्त्वरा में अन्नं भृत् ।

अस्मादगवा स्यात्सङ्घादिषु । शाकलेन
प्रोक्तमधीयते शाकलाः । तेषां सङ्घादिः शाकलः
शाकलको वा । चरणत्वात् बुञ्ज् ।

काशिका में जयादित्य (६५०) ।

शाकल शब्दात्संघादिषु प्रत्यर्थविशेषणेषु
वाणप्रत्ययो भवति तस्येदमित्येतस्मिन्विषये । बुञ्जो-
पवादः । शाकलेन प्रोक्तमधीयते, शाकलाः । तेषां
संघः, शाकलः । शाकलकः । शाकलोऽङ्गः । शा-
कलकोङ्गः । शाकलकं लक्षणम् । शाकलकं लक्ष-
णम् । शाकलो घोषः । शाकलको घोषः ॥

पदमञ्जरी में हरदत्त (११४०) ने लिखा है ।

बुञ्जोपवाद इति । शाकल शब्दस्य चरण शब्दत्वात्, तद-
र्शयति । ‘शाकलेन प्रोक्तमिति’ ॥ (काशी संस्करण) ।

इस सूत्र पर दयानन्द सरस्वती का लेख और
उपर्युक्त सब मतों का स्वरडन ।

शकलात् । ५ । १ । वा । प्राप्तविभाषेयम् । शकल शब्दो
गर्गादिषु पृथ्यते । तस्माद्यजन्ताभित्येऽग्नि प्राप्ते विभाषाऽऽरभ्यते ।
पष्ठीसमर्थाद्वात्रप्रत्ययान्ताच्छ्वकल प्राप्ति प्रदिकाद्विकल्पेनाण् प्रत्ययो
भवति । पक्षे च गोत्रचरणादिति बुद्ध् । शाकल्यस्य संघोऽङ्गो
लक्षणं घोषो वेति शाकलः शाकलकः । अस्मिन् सूत्रे जयादित्य
भट्टेजिदीक्षितादयः कौमुदीकारास्तत् पाठेनश्च वदन्ति । “शाक-
लाद्वा” । ईदृशं सूत्रं लिखित्वा व्याख्यां कुर्वन्ति । शकल शद्वा-
त्प्रोक्तेऽर्थेऽण् । शकलेन प्रोक्तमधीयते ते शाकलाः । तेषां संघः,
अङ्गः, घोषो वा शाकलः । शाकलकः । पक्षे चरणत्वाद्बुद्ध् ।
लक्षणे क्लीवता इति । तदेतत् सर्वमसंगतमेवास्ति । कथम् । यदि
शाकलाद्वेति सूत्रं न्यायं तर्हि तेषां मते शाकलं प्राप्तिपदिकं चर-
णवाचकम् । पक्षे चरणत्वाद्बुधित्युक्तत्वाद् । चरणाद्वर्द्धम्! मन्त्रययो-
रिति वार्तकानियमात् संघादिषु तद्वितोत्पत्तिः कथं स्यात् ।
एतत् तेषां कथनं पूर्वापरं विरुद्ध्यते । यदि ते शाकलशब्दं चर-
णवाचकं न मन्येरन् तर्हि प्रोक्तप्रत्ययान्तस्यागोत्रत्वात्तद्वितोत्पत्तिः
स्यादेव, न गोत्रचरणादित्यधिकारात् । अथास्मिन् विषये महा-
भाष्यकारो भगवान् पतञ्जलिमुनिः “इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य
हस्तश्च,” “संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषें,” “लोपः शाकल्यस्य,”
इत्यादि सूत्रव्याख्यानावसरे शाकल्यस्येमानि लक्षणानि सूत्राणि
शाकलानीति मत्वा शाकलं न प्रसज्यत इत्यादि कथनं बहुपु

स्थतेु करोति । तेन ज्ञायते शाकलद्वेति सूत्रं नास्ति । यदि शाकल शब्दचरणवाची स्यात्तर्हि शाकलशब्दाद्यर्थान्नाययो रभिधेययो रेवाण् प्रत्ययः स्यात् पुनस्तेषां मते शाकलं सूत्रस्य नाम दायं स्पाद । तस्यतेषां शाकलद्वेत्यस्य व्याख्यानं सद्गिर्वेयाकर्णीनाइरणीयम् । स्त्रीलिङ्गप्रकरणे सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य इत्यांकाम । करणातु शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । पूर्वोत्तरौत्तदानार्दित्ताणौ तत्र प्रयोजनम् ॥ १२६ ॥

इस प्राचीर शाकल्य के गोत्र में होने वालों को शाकल कहा गया है । शाकल्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं । सारांश यह कि शाकल्य का संघ, अङ्ग, लक्षण और घोष शाकल वा शाकलक कहा गया है । अतएव यह सूत्र वा शकल शब्द चरण वाची न रहा ।

भाष्यकार पतञ्जलि की सम्मति ।

‘सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः’ ४, १, १८ पर पतञ्जलि कात्यायन की सम्मति उद्धृत करके उस पर भाष्य करते हैं । ‘लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानम्’ ‘लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानं कर्तव्यम् । शाकल्यायनी यदि एनरयं शकलं शब्दो लोहितादिषु पञ्चते । नैवं शक्यम् । इह हि शाकल्यस्य च्छात्राः शाकलः करणादिभ्यो गंत्रे (४,१, १११) इत्यण् न स्यात्’ ।

यहाँ पतञ्जलि कहते हैं कि कात्यायन की सम्मति के अनुसार शकल मात्रिपदक से तद्दृतसंज्ञक एक प्रत्यय हो जावे । परन्तु

शकल शब्द लोहितादिक्षें में न पढ़ा जाय । जहाँ यह पढ़ा है अर्थात् करण के पश्चात्, वहाँ इस का प्रयोजन यह है कि शाकल्य के छात्र भी शाकल कहे जाते हैं ।

२. पुनः “अव्ययात्त्यप्” ४, २, १०३ पर कात्यायन का वार्तिक तेभ्यप्तुभिठौ ॥ ३ ॥ देकर भाष्यकार ने अनेक उदाहरण दिये हैं । एक उदाहरण यह है “शाकलं नाम वाहीकग्रामस्तस्मादुभयं प्राप्नोति । शाकलिकी शाकलिका” ।

१ (क) वा० दीर्घशाकलप्रतिषेधार्थम् ॥२॥ द, १, ७७ ।

(ख) नित्येचयः शाकल भावसमासे तदर्थमेतद्गमवांचकार । द, १, ७७

(ग) किं चान्यत्प्राप्नोति । शाकलम् द, १, ५२, ५१

(घ) समासे शाकलं न भवति द, २, ५२।

(ङ) इदं तर्हि प्रयोजनं दीर्घशाकलप्रतिषेधार्थम् द, २, १०८

पूर्वोक्त पांच स्थलों में शाकल शब्द का प्रयोग शाकल्य की शिक्षा अथवा शाकल्य के सूत्रों के सम्बन्ध में आया है । और इस का प्रमाण महाभाष्य में ही मिलता है ।

इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्तश्च । द, १, १२७ ।

इस सूत्र पर पतञ्जलि कात्यायन की सम्माति उद्धृत करते हैं ।

सिन्नित्य समाप्तयोः शाकलप्रतिषेधः ॥१॥

“सिन्नित्य समाप्तयोः शाकल्यरय प्रतिषेधो दत्तत्यः । इदंते योनिन्नित्यः (ऋ.३.२८.१०) । प्रजां विन्दाम ऋत्वियाम् ।

वैयाकरणः सौवश्वः ॥ नित्यग्रहणन नार्थः । सित्समास गोः शाकलं
न भवतीत्येव । इदमपि सिद्धं भवति । वाप्यामश्वो वाप्यश्वः ।
नद्यामातिर्नद्यातिः । ”

इस वचन से स्पष्ट हो जाता है कि शाकल्य की शिक्षा
को कात्यायन वा पतञ्जलि शाकल शब्द से कहते हैं ।

पूर्वोक्त पक्ष का समर्थन मध्यम कालीन साहित्य में ।

सर्वानुक्रमणी पर वृत्ति लिखते हुए षड्गुरुशिष्य अपनी
वेदार्थदीपिका में लिखता है “तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते
खिलराहिते शाकलके ।

शाकल्योच्चारणं शाकलकम् ।”

यहाँ पर कात्यायन प्रयुक्त शाकलक का अर्थ षड्गुरुशिष्य
ने शाकल्य का उच्चारण किया है ।

इस लेख में पाठभेद ।

वेदार्थदीपिका का जो हस्तलेख दक्षिण कालेज पूना के
पुस्तकालय में अङ्कु ३४ से दिया हुआ है उस में यह पाठ है ।
“तत्राम्नाये सम्यगभ्यासयुक्ते खिलराहिते । शाकल्येन दृष्टः ।
शाकलः शाकल एव शाकलकः ।”

यद्यपि इन दोनों लेखों में बड़ा अन्तर है और द्वितीय की
अपेक्षा प्रथम शुद्ध है तथापि दोनों से किसी शाकल व्यक्ति
विशेष ऋूढि का होना स्वरित हो जाता है ।

पूर्वोक्त पत्र के समर्थन में ऋक्प्रातिशाख्य के कर्ता शौनक का लेख * ।

(१) तत्रिमात्रे शाकला दर्शयन्त्याचार्यशास्त्रपरिलोपहेतवः ।

प्रथम पटल. पृ० ४६.

इस पर टीका करते हुए उब्बट ने 'शाकलाः' का अर्थ किया है "शाकल्य ऋषेमंतानुसारिणः" ।

इस सूत्र के अर्थ में मैक्स मूलर की भान्ति ।

अपनी H.S. L. के पृ० १३६ पर वह लिखता है —

"He (शौनक) mentions (1.65) the Saklas as observing a certain peculiar pronunciation out of respect for their master, who seems to have sanctioned it in his own rules. Who this master was is difficult to say. But it is most likely the same who (1.52) पृ० ३५. is called the master Veda Mitra (friend of the Veda) and who (1.253) is called शाक्ल्यपिता the father of Saklya.

* यद्यपि शौनक प्रश्नशित सब नियम ऋग्वेद में नहीं मिलते, तथापि सम्भव है कि वे आन्दोलनी शाक्षा में मिल जावें क्योंकि शौनक आन्दोलन का शिष्य था । यह आगे लिखा जायेगा ॥

और मै० मू० ने भी वही लिखा है ।

There is not a single ms. at present existing of the Rig. Veda in which the rules of our Prtisakhyā are uniformly observed, and the same applies to the mss of the other Vedas. सम्भव है यह नियम शैक्षिरी में मिलें ।

‘इम का अभिप्राय यह है कि शाकल अपने आचार्य की श्रद्धा के कारण एक विचित्र उच्चारण मानते हैं। वह आचार्य कौन था? यह कहना यथापि कठिन है तथापि वह वेदमित्र अर्थात् शाकल्यपिता—शक्ल था।’ यह मैक्समूलर की सम्मानित सत्य नहीं क्योंकि पूर्वोक्त और आगामी सब प्रमाणों से सिद्ध है और हो जायगा कि शाकलों का आचार्य स्वयं शाकल्य ही है।

पूर्वोक्त सूत्र में यह उदाहरण है।

न त्वा भीरिव विंदतीऽ मृ० १० । १४६ । १

मूल, पदपाठ, और निरुक्त ६, ३० में विंदती इँ ऐसा त्रिमात्र पाठ ही है। परन्तु निरुक्त के व्याख्यान में नहीं।

दूसरे आचार्य प्लुतोच्चारण नहीं करते थे। इस का प्रमाण तैत्तिरीय ब्राह्मण २। ५। ५। ६ में मिलता है। वहां यही मन्त्र ऐसा मिलता है।

“न त्वा भीरिव विंदती”।

(२) उकारश्वेतिकरणेन युक्तो रक्तोऽपृक्तो द्राघितः शाक-
लेन पृ० ५० ।

(अर्थ) और अपृक्त उकार इति से युक्त, अनुनासिक और दीर्घ होता है, शाकलमत से। यहां शाकल से अभिप्राय शाकल्य के नियम से है। इस का प्रमाण पाणिनीय सूत्र “उवः ऊँ” मृ० १। १। १७ है। इस में शाकल्य की अनुष्टुति ऊपर से

आती है। (अर्थ) उब वी प्रगृह्ण संज्ञा शायत्य के मत में हो अनार्थ इति परे होने पर। तथा उब् के स्थान में दीर्घ अनुनासिक लँ आदेश हो और वह भी प्रगृह्ण हो। उदाहरण-उ इति, ऊँ इति। दूसरों के मत में विति होगा।

इसी अभिप्राय के सूत्र शौनक चतुरध्यायिकामें भी आते हैं।

उकारस्येतावपृक्तस्य ॥ ७२ ॥

U is nasalized when standing alone before इति. In the Pith text of the Atharvana as in those of the other Vedas, the particle U is always written ऊँ इति. In this rule its nasality in such a situation is noticed, in the rule next succeeding are taught its long quantity and its exception from conversion into a semi-vowel before the following vowel.

The term aprīk अप्रीक means 'uncombined with any other letter'; it is said also of the particles आ and ओ (= + -) by rules 170, IV 113 below.

दीर्घ प्रगृह्णश्च ॥ ७३ ॥

In the same situation it is also long, and प्रगृह्ण। (Whitney's translation).

यजुः प्रातिशाख्य में भी यही नियम है।

उकारोऽपृक्तो दीर्घमनुनासिकम् ॥ अ० ४.६३॥

इति परे आने पर (मू० ६१ से) अपृक्त=अकेला उकार दीर्घ और अनुनासिक हो जाता है।

तैत्तिरीय ऐसा नहीं करते ।

उकार के सम्बन्ध में तैत्तिरीयों का ऐसा नियम नहीं है ।

उदाहरण में एक मन्त्र को देखिये—

“वाममध्य सवितर्वामिसु ष्ठः” ऋ० ६.७.१६ यजुः ८४
तै० १४। २३ तथा २२।२.

इस पर ऋूग् तथा यजुः के पदपाठों में ऊँ ऐसा पद बन जाता है, परन्तु तैत्तिरीय शास्त्र में “उ” ऐसा ही रहता है । इसी लिये पाणिनि ने १।१।७ म शाकल्य ग्रहण करके विकल्प किया है ।

तत्सम्बन्ध पाणिनीय सूत्र में अनार्ष का अर्थ ।

प्रायः व्याख्याकारों ने यह ‘ऋषिवेदः’ मान कर अनार्ष का अर्थ अवौदिक किया है । वे लोग ब्राह्मणादि ग्रन्थों को भी वेद मानते हैं । क्योंकि पा० १।१।६ पर जो उदाहरण “ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत्” आरम्भ से दिया जाता है वह ब्राह्मण का ही सम्भव है । यथापि अभी तक वैसा पाठ तो नहीं मिला परन्तु ‘ब्रह्मबन्धविती’ ऐतरेय ब्राह्मण ७।२७ में मिलता है *। अतः जो लोग ब्राह्मण तक को वेद=आर्ष मानते हैं उन के लिए शाकल्य संहिता आर्ष क्यों न होगी ? इस शाकल्य संहिता का आदर बहुत काल से होता आया है । देखो महाभाष्य में ज्ञात्वा है ।

* पीछे “ब्रह्मबन्ध इत्यब्रवीत्” पाठ काठक १०।५।६ में मिलता है ।

“ शाकल्यस्य संहितामनुप्रार्पत् । ”
 शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिश्चम्य देवः प्रार्पद ॥ (अर्थ)
 शाकल्य से भवे इकार की गई लहिता की समाप्तिपर वर्षा हुई ।

ऐसी संहिता में आया हुआ इति पद उन के मत के अनुसार अवैदिक कैसे होगा ? हमारी समझ में जो समाधान आता है उस के अनुसार अन्य बहुस्पत्नवद् यहां भी आर्ष का अर्थ ऋषि=अनूचान प्रोक्त ही है । प्रतीत होता है कि शाकल्यादि ऋषियों के समय में साधारण जन सम्बोधन में आये वैदिक पदों के आगे इति शब्द प्रयोग में लाकर उन्हें प्रयृष्ट माना करते थे । शाकल्य ने उन की बात स्वीकार कर ली और अपनी संहिता में उन्हीं का प्रकार जता दिया । और क्योंकि अन्य सब पदकार शाकल्य के समय के पश्चात हुए हैं, अतः उन सब ने यह प्रकार स्वीकार कर लिया ।

यहां कोई कह सकता है कि शाकल्य संहिता आर्ष नहीं अथवा कोई उच्च स्थान नहीं रखती क्योंकि पतञ्जलि ने स्वयं उस की संहिता के साथ “सुकृतां” का प्रयोग करके उसे साधारण प्रन्थवद् “तेन अधिकृत्य कृते प्रन्थे” के अनुसार बतलाते हैं । और ब्राह्मण तो प्रोक्ताधिकार में हैं तो उस का उत्तर यह है कि उन के मानुसार तो प्रोक्ताधिकार में होता हुआ भी कल आर्ष नहीं अर्थात् वेद नहीं ।

वेद संहिता में किसी प्रगृह की सन्धि नहीं हुई । ‘उ’ वद

कई स्थलों पर प्रयृष्ट है और कई स्थलों पर नहीं ।

घृतम्बस्य धाम ऋू० २. ३. ११

” ” तै० १०. १०. २.

उ इति के स्थान में ऊपर इति इस लिये है कि “यरो नुनासिके नुनासेको वा” ८।४।४४ से विकल्प हो जाता है । यह बात हरदत्त ने इस स्थल पर पढ़मज्जरी में लिखी है ।

(३) “ संयुक्तु व्यञ्जनं शाकलेन । ” पटल, ६। १४. पृ. १५७. पदादि (६.१२) संयुक्त व्यञ्जन दीर्घ से परे (६.१३) द्वित्व नहीं होता, शाकल विधान से ।

उदाहरण, आ त्वाहार्षभंतरेवि ऋू० १०. १६३. १.

” ” तै० ४. २. १. ४

” ” मै० २. ७. ८.

” ” अ० ८. ८७. १.

,, रवाहार्षभन्तरभूः य० १२. १५ (निर्णय सागर)

(४) लकार ऊप्मस्वपि शाकलेन । पष्ठ पटल पृ० १६० (३८८) । लकार का अभिनिवान (६। १७) होता है, ऊप्मो (श, प, स, ह) के आने पर भी शाकल मत से ।

उदाहरण, पदपाठ-न अरायासो न जलहवः

संहिता । न अरायासः न जलहवः ऋू० ८. ६५. ११

अगले कई सूत्रों में भी शाकल शब्द का प्रयोग अनेक ऐसे नियमों में आता है ।

(५) असंयुक्तं तु शाकलम् । पृ० १६१. (६००)

(६) सर्वत्रैके करणस्थानभेदे वा शाकलम् । (४०३)

(७) चतुः क्रमस्त्वाचातित्र शाकलैः । पृ० २६३. ११.१६

(८) असर्वशास्त्रप्रधृतिव्यनेकशः स्मरन्ति संख्यानियवेन
शाकलम् । ११, २१

(९) —शाकलाः क्रमे पृ० २६३ (६७३)

इन मूर्तों के उद्धृत करने का यही प्रयोजन है कि यहाँ भी
शाकल शब्द से शाकल्य के नियमों या उस के बतानुयायियों
अर्थात् शिष्यों से अभिशाय है। प्रथम प्रमाण में उन्होंने नी
यही अर्थ किया है। इस से भी हमारा भत पुष्ट रहता है।

शाकल्य कितने हुए हैं ?

शाकल्य और शाकल का राम्भन्ध जानने के अनन्तर यह
जानना आवश्यक है कि शाकल्य कितने हुए हैं ?

(१) एक शाकल्य का उल्लेख तो हो ही रहा है। उसका
और प्रमाण भी देखिये।

(२) इकारयोश्च प्रश्नेषे क्षेपाभिनिहितेषु च ।

उदात्त पूर्व रूपेषु शाकल्यस्य दमाचरेत ॥ १३ ॥

तृतीय पट्टल पृ० १०२ ।

(अर्थ) हस्त इकार की अवस्था में प्रश्नेषे, त्रिप, और
अभिनिहित संविधियों में उदात्त पूर्व और अनुग्रह उभा रूप
आने पर (एवम्) ऐसे स्वरित करे। उदाहरण—

- (१) सुचीवधूतम् । ऋ० १०, ६१, १५, प्रश्निष्ठ सन्धि
 (२) ओजान्विन्द्र ते हरी । ऋ० १, ८२, १, तैप्र सन्धि
 (३) तेऽवर्धन्त । ऋ० १, ८४, ७, अभिनिहित सन्धि
 (४) नियमं कारणादेके प्रचयस्वर धर्मवद् ।

प्रचयस्वर आचारः शाकल्यान्यतरेतयोः ॥

प० ३। २२, ष० १०५, (२०८)

- (५) सर्वैः प्रथमैः स्पर्शैरुपधीयमानः शकारः ।

शाकल्य पितुर्मतेन छकारमापन्ते ॥ ४ ॥

प० ४, ष० १५० (२२९)

(अर्थ) सब प्रथम स्पर्शों से उपधीयमान शकार शाकल्य के पिता के घर से छकार को प्राप्त होता है । उदाहरणः—

- (१) शृंगेव नः प्रथमा गंतर्मवाङ् शफादिव ऋ० २, ३४, ३, संदिता ।
 शृंगाऽइव नः प्रथमा गन्तम् ग्रवाङ् शफाऽइव ,,, पदपाठ ।

(२) शृंगेव छुतुद्री ऋ० ३, ३४, ३, विपाद् शुतुद्री ।

- (३) तायं सोमस्त्वमेष्वर्वाह् शश्वत्तमं ऋ० ३, ३५, ६,
 उब्बट का उद्भृत यह (शश्वत्तमं) पाठ किसी सम्प्राप्य शास्त्र में नहीं मिलता ।

(४) बंशनेत्र वश्चिञ्छनयिष्मिशन् ऋ० १, ६३, ५ ।

यहाँ अलाइ है और यह मन्त्र के रूप ऋग्वेद में ही है ।

मूल ऋग्वेद में शाकल्य के पिता (शकल) के अनुसार पाठ है।

(४) न शाकल्यस्य ॥ १३ ॥ पृ० १११ (२३२) पटल चतुर्थ ।

(अर्थ) शाकल्य के मत में द्वकार नहीं होता ।

उदाहरण, वन्निष्व अधियहि । तच्छयोः ।

(५) समापाद्यं नाम वदंति पत्वं तथा णत्वं सामवशांश्च संधीन् ।

उपाचारं लक्ष्मणतश्च सिद्धमाचार्या व्याख्यशाकल्य गार्याः ॥ ३२ ॥

पटल १३, पृ० ३०८, (७३६)

यजुः प्रातिशार्थ्य में शाकल्य ।

अविकार ७७ शाकल्यः शष्षसेषु ॥ १० ॥ अध्याय ३ ।

परभूत श, ष, स में संहिता (१) में शाकल्य विसर्जनीय के विकार को नहीं मानता ।

आशुः शिषानः ऋ० य०, सा० ।

अदितिः षोडशात्तरेण ।

देवो वः सनिता । य० ११९

निरुक्त में शाकल्य ।

‘वने न वायो न्यगायि चाकर’ । ऋ० १०, २६, १ ।

इस पर निरुक्त ६ । २८ में लिखा है ।

“वन इव वायो वेः पुत्रश्चायाविति वा कामयमान इति वा । वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमार्थ्यात्पभावि-
प्यद्युसमाप्तश्चार्थः ।”

अर्थात् शाकल्य ने ‘वायो’ का जो वा, यः पठाया तो वाया है वह सुन्दर नहीं ।

यह मन्त्र अर्थवा का २०, ७६, १ है । वहां भी पद्माठ में वा । यः ही लिखा है ।

पूर्वोक्त प्रमाणों के धरने का यह प्रयोजन है कि प्रातिशाख्यादि ग्रन्थों में भी शाकल शब्द शाकल्य के नियम का घोतक है । और शाकल्य के नियम ऋग्वेद में मिल जाते हैं । एक स्थन पर शाकल्य के पिता का नियम भी ऋग्वेद प्रातिशाख्य में विद्यमान है । इन से यही परिणाम निकलता है कि ऋग्वेद तो पहले वर्तमान था, पर जब शाकल्य ने इस का पद्माठ करके अपनी संहिता बनाई तो ऋग्वेद पर उस का अङ्क होने से इसे शाकल वा शाकलक कहा गया । शाकल्य के पिता का मत भी ऋग्वेद में मिल जाने से सिद्ध है कि मूलवेद में यद्यपि शाकल्य के नियम वर्ते जाने लग पड़े थे, तथापि ऐसा नहीं था कि औरों के वर्ते ही न जाय । हाँ शाकल्य के नियम अविक वर्ते गये हैं ।

लोपः शाकल्यस्य दा३।६॥ तर्वशाकल्यस्य दा४।५०

(अर्थ) 'जो अवर्ण से परे और अश्व प्रत्याहार के पूर्व यकार वकार होतो उनका विकल्प करके लोप होता है, शाकल्य आचार्य के मतमें । १। जहाँ र द्विर्वचन कह आये हैं वहां २ शाकल्य आचार्य के मत से न होना चाहिये ॥२॥

इन दोनों सूत्रों में जो कुछ आया है वह निरपवाद वेद के लिखने में वर्ता गया है ।

यह शाकल्य सब से प्रथम पदपाठकार प्रतीत होता है, क्योंकि इस के प्रायः नियम दूसरे पदपाठों ने ले लिये हैं। यह पूर्वोक्त प्रातिशाख्यों की तुलना से प्रतीत हो गया होगा।

(२) स्थविर शाकल्य ।

शाकल्य के अतिरिक्त एक स्थविर शाकल्य का उठे भी मिलता है। इस के सन्दर्भ में ऐरेय आरण्यक का अनुवाद करते हुए कीथ बडाश्य ऐसा लिखते हैं।

Geldner (*Vedische Studien*, III 144 sq.) considers that शाकल्य must be identical with Vidagdha शाकद्वा mentioned in the Satapatha Brahmana, XI, 6, 3; XIV, 6, 9 (see Weber, *Ind. Stud.*, IX, 277 sq.; Indian Literature, P. 33) and identified with the maker of the Padapatha by the Vayu Purana, LX, 58 I would lay stress on the fact that in the Aranyaka he is Sthavira Sakalya, (a) in the Brahmana Vidagdha. These names are too distinct to permit of identification. The शाकल्य of the Pratisakhyā is likewise Sthavira and must be the same as the man here (b) (P. 240.)

(a). It is true that Sthavira does not occur in III 1, 2, but I do not think it is reasonable to take the Sakalya of that passage as different from him of III, 2, 1, 6, as does e. g. Weber, Indian Literature, P. 50.

(b). On him see Max Muller, Rigveda Pratisakhyā p.p. 7 sq.

वैदिक इण्डैक्स में भी मैकडानल और कीथ का ऐसा ही लेख है।

“शाकल्य ‘descendant of शाकः’ is the patronymic (गोत्र नाम, अपन्त्य बाचक) of Vilagatha in the Satapatha Brahmana, and of Sthivira in the वेतरेय and शाङ्कायन आरण्यक’५।” (Vol. II P. 368).

प्राचीन ग्रन्थों में नामविशेष के साथ स्थविर का प्रयोग।

(१) “इन्त पूर्वेष माचार्य स्थविरं जातुकर्णयं पृच्छान् निति । तं ह प्रच्छ । यद्यतिक्रान्तमुल्बणं कर्ता वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोधयेत कथं तदुल्बणमनुल्बणं भवेत्पुनर्वचनेन वा मन्त्रस्य होमेन वेति पुर्वाच्योः मन्त्र इति ह स्माह जातुकर्णयः । तभलीकयुः पुनः प्रच्छ शस्त्रं वालुवचनं वा निगदं वा यज्ञां वा यज्ञान्यत्सर्वं तत्पुनर्ब्रूया दिति यावन्मात्रमुल्बणं तावद्ब्रूयाद्वच वार्धर्चं वा पादं वा पदं वा वर्णं वेति ह स्माह जातुकर्णयः” कौशीतक ब्रा० २६.५.

(२) प्राच्यपंचाम उपधानिभोदयः शाकल्यस्य स्थविरस्य
ऋग्वेदिशाख्य पटल ३, ४६.

स्थविर शब्दवत् युवन् शब्द भी कई नामों के साथ लगता है।

कौशिक सूत्र ६। १ में युवा कौशिक नाम आता है और यह कौशिक से भिन्न व्यक्ति का नाम है क्योंकि ६, १० में “पूर्वया कुर्वीत”—इस दिक्षि में कौशिक नाम आ चुका है। और युवा कौशिक की सम्पत्ति है “अन्यतरया कुर्वीत”।

(३) विद्यम शाकल्य ।

सतपथ ब्राह्मण के चौदर्वे काण्ड में याइवद्वय के साथ

इस विदग्ध शाकल्य का जो सम्बाद हुआ था, सो दिया है। यहां इसका अनेकवार नाम आया है।

हमारी दृष्टि में शाकल्य, स्थविर शाकल्य और विदग्ध शाकल्य तीनों भिन्न २ पुरुष हुए हैं। पुराने ग्रन्थों में स्थविर और युवन विशेषण देकर भिन्न २ व्यक्ति कहे गये हैं। यह पूर्वोद्धृत प्रभाणों से ज्ञात होनुका है, अतः शाकल्य और स्थविर शाकल्य के भिन्न २ यानने में कोई दोष नहीं। और तीसरा भी विदग्ध विशेषण के आजाने से भिन्न है, इस परिणाम में इध कीथ के साथ सहयत है।

कार्त्तकौगपादयश्च । अ०६॥३४॥

इस मूल पर जो गता है उस में “शाकलशुनकाः ।” “शाकलसणकाः ।” दो गता दिये हैं। यहां भी शाकल का अर्थ शाकल्य के शिरों से है।

विकृति बद्धी

सर्वद्वन्तं * जगत्सेतुं परभात्यानमीश्वरप । तं सर्वज्ञं
वन्दे नारायणं देवं गिरवद्यं निरञ्जनम् ॥

नत्वादौ शौनकाचार्यं युहं वन्दे महानिषिद्धिः ।

मुनीन्द्रं सर्वदेवद्वं * ब्रह्माद्वं सोकिष्ठुतव ॥ वेदज्ञं
नयायि शौनकाचार्यं * शाकल्यं स्थविरन्तथा । शाकल्लाचार्य
ब्रह्मविद्या गुरुं श्रेष्ठं भारद्वाजं वृहस्पतिष्ठ ॥

शेशिरीये समान्नाये व्यालिनैव महात्मना ॥१॥ महर्षिणा
जटाच्चा विकृतीरष्टौ वच्यन्ते नातिविस्तरम् ॥२॥

उपर्युक्त श्लोक विष्णुतिवल्ली ग्रन्थ में आए हैं। जिनका पूरा पाठ दिया गया है वे इलाक ग्राहस के गर्वन्मैण्ड पुस्तकालय के नवी के सं० ८५८ के नीचे उद्धृत किये गये हैं। यह ग्रन्थ सचिवत सत्याग्रही ने छपवाया भी है। वहाँ जो पाठ मिलते हैं वे वाठभेद में दें दिये गये हैं। इन में “शक्लः” का अर्थ गङ्गाधर यत्प्राप्तार्थी दीक्षाकार ने दिये किया है—

“जाह्नवाचार्यं नमामि, शक्लं एव शक्लः स्वार्थं या प्रत्ययः,
स जाह्नवाचार्यश्चेति” । पृ० ३.

बंकिम कालेज पूर्ना की नवीन सूची में सं० ५३ में यह लेख है—

“On page 49, beside, begins a different work forming rather a supplement to the Prâtisâkhya with these verses :—

ॐ तं सर्वज्ञजगत्सेतुं परमात्मानमीश्वरं ॥
वदे नारायणं देवं निरवद्यं निरंजनं ॥१॥
सत्त्वादौ शाकलाचार्यं शाकल्यस्त्वंचिरं (स्थविरं ?) तथा ॥
ब्रह्मविद्या गुरुं श्रेष्ठं भारद्वाजं बृहस्पतिं ॥२॥
शेशिरीये समान्नाये व्याडिनैव महर्षिणा ॥
जटाच्चा विकृतीरष्टौ लच्यन्ते नातिविस्तरं ॥३॥

The work ends thus - -

पदद्रयमनुक्रम्य व्युत्क्रमात्क्रमसंधिवत् ॥
स्वर लक्षण संयुक्ता सा जटेत्यभिधीयते ॥ १६ ॥
॥ इति जटापदलं समाप्तं ॥”

यह ग्रन्थ निश्चय ही विकृतिकृती नामक है। परन्तु मुक्तिग्रन्थ में कुल २३ श्लोक हैं और इस में १६। इस का अन्तिम अर्थात् उन्नीसवां श्लोक वहां २२वां है। इस के आगम्भ में ही “नत्वादौ शौनकाचार्य” वाला श्लोके लुप्त है। इस से ज्ञान होता है कि इस छोटीसी पुस्तक में भी अत्यन्त पाठभेद हो गया है। हमें तो इस पुस्तक के व्याडिरचित होने में भी सन्देह है, क्योंकि पूर्वोक्त श्लोकों में “व्याडिनैव महिर्पिणा” पदों में ‘एव’ शब्द और ‘महिर्पि’ शब्द ध्यान देने योग्य हैं। एव शब्द पर गङ्गाधर टीकार ने यह लिखा है—“शौनकाचार्याणां मते जटाव्यष्टविकृति लक्षणस्य व्याडिप्रणीतस्येष्वेष्टवान् मारहकेय प्रोक्तस्य जटालक्षणस्येत्येवाभिप्रायार्थ एवकारः।” अर्थात् याहूँके य प्रोक्त लक्षणादि से भिन्नता दिखाने के लिये यह एवकार है। परन्तु स्वयं व्याडि को यह कहने की आवश्यकता न थी। मुनि स्वनाम के साथ महार्पि पद का प्रयोग इसे अन्यरचित बताता है। कोई कह सकता है कि रामयणादि ग्रन्थों में भी तो “नारदं परिप्रकृ वाल्मीकिमुनिपुंगवः ॥” * ३ ॥ बालकारड। वाल्मीकि स्वयं अपने को मुनिपुंगव लिखते हैं।

* यह पाठ इलैगल की रामायण में है। निर्णयसागर वालों का पाठ ‘मुनिपुंगवम्’ अशुद्ध है।

तो उस का उत्तर स्पष्ट है कि रामायण के पहले चार सर्ग स्पष्ट ही प्रदित्त हैं। वास्तविक रामायण आगे से आरम्भ होता है। ऐसे ही सम्बद्ध है कि व्याडि प्रोक्त कोई विकृति-लक्षण-सम्बन्धी ग्रन्थ हो और उस के बिंगड़े बिंगड़े यह श्लोक रह गये हों, परन्तु यह पुस्तक व्याडि ने स्वयं कदापि नहीं कहा।

हमारी सम्मति में सब पाठों को मिला के द्वितीय श्लोक तो अनर्थक ठहरता है और यद्यास वाजा तृतीय श्लोक द्वितीय हो सकता है।

“नमामे शौनकाचार्यं शाकल्यं स्थविरं तथा ।” यदि ऐसा न भी हो तो शाकलाचार्य वाला पाठ नवीन काल का है और दूसरे प्रमाणों के सम्मुख इसका कोई आदर नहीं।

हरिप्रसाद ने न जाने यह कैसे लिख दिया कि पूर्वोक्त श्लोक व्याडि प्रणीत संग्रह के मंगलाचरण में आया है? संग्रह तो सम्प्रति कहीं मिलता ही नहीं।

(४) सर्वानुक्रमणी-भाष्य में पद्मगुरुशिष्य का लेख।

मैक्समूलर ने अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वानुक्रमणी-भाष्य में से पद्मगुरुशिष्य के कुछ वचन दिये हैं। उन में ही “शाकलस्य संहितैका वाष्कलस्य तथापरा ।” लेख मिलता है। पूर्वपक्षी इस वचन से ऋग्वेदीय दो शाखाएं मानता है, अर्थात् शाकल और वाष्कल की। सर्वानुक्रमणी-भाष्य

में आया हुआ यह लेख चाहे पृगुरुशिष्य का हो, वा उसने कहीं से उद्धृत किया हो, वहुत पुराना नहीं। यह उसी काल का है जब कि ऋग्वेद को शाकल-प्रोत्त मीमाननेलग पड़े थे। इन श्लोकों का अधिकांश भाग आलझूरिक और कल्पित है, अतः इनका कोई प्रमाण नहीं। पैतसगूलर की भी यही सम्मति है। “It need hardly be pointed out that this passage contains a strange and startling mixture of legendary and historical matter.....” p. 232.

उपर्युक्त श्लोकों के अन्तिम भाग में यह पंक्ति आई है। वह भाग यथापि कुछ ऐतिहासिक है, तथापि अन्य प्रमाणों की प्रबलता से उसका यह वाक्य आदरणीय नहीं।

इसी क्रम में आश्वलायन-गृह्णसूत्र का भी एक वचन विचारणीय है। श्री सत्यव्रतसामाश्रमी ने ऐतरेयालोचन में चरणद्यूह के टीका-कार महीदास के प्रमाण से आश्वलायन-गृह्णसूत्र ३।४ में आये हुए कुछ ऋषियों के नाम तीन गणों में बांट दिये हैं।

मारद्वकेय गण—जानन्ति, वाहवि, गार्य, गौत्रम, शाकल्य,
वाभ्रव्य, मारद्वव्य ।

शाद्वायन गण—कहोल, कौषीतक, महाकौषीतक, पैद्वन्य,
महापैद्वन्य, सुयज्ञ ।

आश्वलायन गण—ऐतरेय, मैतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजात-
वक्त्र, औदवाहि, महौदवाहि, सौजामि,
शौनक ।

उपर्युक्त तीन गणों में $7+6+6=22$ वर्द्दिस ऋषि गिने गये हैं। सत्यव्रत और उस से नकल करने वाले बालकृष्ण एम० ए० से महाकौषितक और बाष्कल दो नाम छृट गये हैं। हमारा प्रयोजन यहां तृतीय गणस्थ “शाकल” से है। कोई कह सकता है कि यही “शाकल” आयुनिक शाकल संहिता का प्रबचनकर्ता हुआ है। पर यह बात सत्य नहीं। प्रथम गण में “शाकल्य” का नाम आ चुका है। पूर्वोद्धृत कई श्लोकों से पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि शाकल्य के शिष्य ही शाङ्कायन और आश्वलायन थे। इन्हीं दोनों का सम्बन्ध द्वितीय और तृतीय गणों से है। शिष्य गुरु से निश्चय ही उत्तरकालीन हैं। उन्हीं शिष्यों और प्रशिष्यों की परम्परा में सें शाकल एक है। यह शाकल कदापि शाकल-संहिता का प्रबचनकर्ता नहीं हो सकता। शाकल-संहिता (शाकल्य के पद-पाठ वाली संहिता) तो बहुत पूर्व बन चुकी थी, नहीं नहीं उस का क्रमपाठ भी हो चुका था। ऋग्वेद के क्रमपाठ का कर्ता बभ्रुपुत्र सुप्रसिद्ध है। “इति प्र बाभ्रव्य उवाच च क्रमम्” ऋकृष्णा० १।१६५ अर्थात् बाभ्रव्य ने क्रम-संहिता का प्रबचन किया। यह बाभ्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण में प्रथमगणीय और शाकल्य के निकटवर्ती है। अतएव तृतीय गणस्थ ऋषियों से बहुत पहले शाकल्य था, तथा च उस की संहिता पदपाठ रूप में थी। उसी के शिष्यों प्रशिष्यों में कोई

व्यक्ति उस का बहुत प्रचार करने वाला हुआ है कि जिस का गुणनाम शाकल हुआ । वही तृतीय गण में गिना गया है । पाठक इतने लेख से निश्चय कर चुके होंगे कि यह शाकल शाकल-संहिता का प्रवचनकर्ता कभी नहीं हो सकता । वह गौण नामधारी तो अन्य ही था । देखो उसका समीपवर्ती शैनक अनुवाकानुक्रमणी में क्या कहता है ।

ऋग्वेदे शैशिरीयायां संहितायां यथाक्रमम् ।

प्रमाणमनुवाकानां सूक्तैः शृणुत शाकलाः ॥६॥

इन्हीं शाकलों में से एक व्यक्ति विशेष शाकल बना । आश्वलायन गृह्णसूत्र के विषय में एक ही बात विस्मयमें डालती है अर्थात् उस के साथी शाङ्खायन के गृह्णसूत्र ६।१९ में दो चार और नामों के साथ शाकल नाम का भी अभाव है ।

(५) आश्वलायन श्रौतसूत्र ६।१९ के भाष्य में गार्यनारायण ने जो “शाकलस्य वाप्कलस्य चाम्नायद्ययस्य” लिखा है, सो यह उस ने पूर्वप्रदर्शित बातों पर ध्यान न देकर ही लिखा है । अन्य नवीन लोगों के समान उस का मत भी प्रामाणिक वा सम्मानयोग्य नहीं है ।

(६) विकृतिवल्ली की टीका में गङ्गाधर का प्रमाण ।

अन्तिम प्रमाण गङ्गाधर का है । इसे हरिनसाद ने अपने वेदसर्वस्व के पृ० ४७ पर उछृत किया है ।

शाकलस्य * शतं शिष्या नैष्ठिक ब्रह्मचारिणः ।

पञ्च तेषां गृहस्थास्ते धर्मिष्टाश्च कुदुम्बिनः ॥ १ ॥

शिशिरो बाष्पकलः शाङ्को वातस्यश्वेवाख्लायनः ।

पञ्चेत शाकलाः शिष्याः शाखाभेदप्रवर्तकाः ॥ २ ॥

उस ने इस का अर्थ किया है “‘शाकल ऋषि के एक सौ शिष्य थे ।” परन्तु यह श्लोक इस रूप में कहीं नहीं मिलता । विकृतिवद्वी का जो संस्करण गङ्गाधर की टीका-सहित सत्यव्रत द्वारा सम्पादित हुआ है उस में “‘शाकलस्य’” के स्थान में “‘शाकल्यस्य,’” “‘शिशिरः’” के स्थान में “‘शैशिरः’” “‘शाङ्कः’” के स्थान में “‘साङ्कचा’” पाठ मिलता है । उस ग्रन्थ में इस के आगे एक श्लोक ऐसा है ।

ऋग्वेदादि महाशाखा कल्पाख्या वेतरा मता ।

शाकलाः शौनकाः सर्वे कल्पं शाखां प्रचक्षते ॥ ३ ॥

सत्यव्रत ने ऐतरेयालोचन पृ० १२७ पर प्रथम श्लोक में शाकल्य पाठ ही लिखा है ।

मद्रास की सूची सन् १९०४ Vol ii Vedic Literature के सं० ४५८, पृ० ६६४ पर यही श्लोक उद्धृत है । वहां भी “‘शाकल्य’” और “‘शैशिरः’” पाठ ही आया है । अतः हरिप्रसाद

*ब्रह्मागड पुराण का जो उद्धरण अष्टविकृतिविद्वतिः में मधु-
सूदन सरस्वती ने दिया है वहां “शाकल्यस्य” पाठ है । पृ० (८) ।

का पाठ सर्वथा त्याज्य है। यद्यपि यह श्लोक पुराणादि में आये हैं और अधिक प्रामाणिक नहीं, तथापि यहाँ तो शाकल्य का नाम ही मिलता है। इस नाम से भी हमारा पूर्वोक्त कथन ही सिद्ध होता है, अर्थात् शाकल-संहिता शाकल्य के पदपाठ से कहाँ जाने लगी थी, शाकल के प्रवचन से नहीं।



ऋग्वेद किसे ने बनाया ?

पूर्व-पच्च ।

(१) यह ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति का बनाया नहीं है । भिन्न २ कालों में पुराने गायकों ने कई भाव कविता रूप में कहे थे, वही पिछले कालों में एक ग्रन्थ के रूप में संगृहीत हुए हैं । उन्हें ही ऋग्वेद नाम दिया गया । इस का प्रमाण उन्हीं कवियों के अपने शब्दों में मिलता है । उन का उत्तरवर्ती आर्य इतिहास भी इसी बात की साज़ी देता है । उक्त दोनों प्रकार के प्रमाण क्रमशः यह हैं—

मन्त्रकृत् शब्द

(१) ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कद्यपोद्रव्ययन्गरः । ऋ०
द्वा २२४ । २ ।

(२) शिरुर्वा आद्विरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत् । स पितृन्
पुत्ररा इत्यापन्त्रयत । तां० ब्रा० २३ । ३ । २४ ।

(३) दैवा है सर्वचरां सत्रं निषेदुः । ते ह पाप्मानं नापजघ्ने
तान्होवाचार्बुदः काद्रवेयः सर्वऋषिर्मन्त्रकृत् । ऐ० ब्रा० ६ । ?

(४) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृष्यो
मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परा-
दाम । तै० आ० ४ । १ । १ ।

(५) मन्त्रकृतो वृणीते । “यथर्षि मन्त्रकृतो वृणीत” इति विज्ञायते । आप० श्रौ० २४ । ५ । ६ ।

(६) अथ येषामुह मन्त्रकृतो न स्युः स पुरोहितप्रवरास्ते प्रवृगीरन । आप० श्रौ० २४ । १० । ५३ ।

(७) विज्ञायते च । “ऋपेर्कृपेर्वा एता निर्मिता यत्सामिधेन्यः । ” आप० श्रौ० २४ । ११ । १० ।

(८) इत ऊद्धर्वान्मन्त्रकृतोऽध्वर्युवृणीते । “यथर्षि मन्त्रकृतो वृणीत” इति विज्ञायते । सत्या० श्रौ० २ । १ । ३ ।

(९) नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृदभ्यो मन्त्रपतिभ्यः । आ० श्रौ० ८ । १४ ।

(१०) दक्षिणत उद्गमुखो मन्त्रकारः । मा० गृ० मू० १ । ८ । २ ।

(११) दक्षिणतस्तिष्ठन्मन्त्रवान्ब्राह्मण आचार्यायोदकाञ्जलि पूरयेत । खा० गृ० मू० २ । ४ । १० ।

(१२) सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कृतः । अ० ३।२।८८। इस मूत्र के उदाहरण हैं सुकृत । कर्मकृत । पापकृत । मन्त्रकृत । पुण्यकृत ।

पूर्वोद्धृत वाक्यों को ही दृष्टि में रखते हुए गैरिडानल और कीथ ने वैदिक इण्डकैस में कहा है—

“Mantrakrit in the Rigveda and the Brahmanas denotes a poet as a ‘maker of Mantras’”

उत्तर पक्ष ।

उपर्युक्त जितने स्थलों में मन्त्रकृत शब्द आया है उसे देखते ही वेदादि शास्त्रों के सांशारण पाठक कह उठते हैं कि पुगने काल में आर्थ को मन्त्रों को किया वा वनाया करते थे । उदाहरणार्थ मैकडानल और शीथ की संस्कृति ही ले लीजिये । हम अपना कथन अनितम प्रमाण से प्रारम्भ करेंगे ।

“तुर्कर्मपापयन्त्रपुगयेषु कृञः ।” (अर्थ) स्वादिक उपपद हों तो कृञ यातु से भूतकाल में किए प्रत्यय हो । मन्त्रकृतवान्, एन्त्रकृत । “भूते ।” ३ । २ । ८८ से भूतकाल की अनुवृत्ति इस सूत्र में भी चली आती है । इस का प्रयोजन यह है कि स्वादिक उपपद हों तो भूतकाल ही में किए हो अन्यकाल में नहीं । अर्थात् मन्त्रद्वाकरोति करिष्यति वा, यहाँ किए नहीं हुआ ।

सांशारण रूप से तो मन्त्रकृत का अर्थ है जिस ने मन्त्र=विचार को किया हो । पर पूर्वपक्षी कहता है ऋग्वेद और ब्राह्मणों में मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्रों को वनानेवाला है । हमारा हम पर इतना ही कथन है कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ जो हो सो तो आगे आयगा ही, पर यहाँ इतना सब को स्वीकार होना चाहिये कि ब्राह्मणों वाला अर्थ ही श्रौतसूत्रों में भी आया है । कारण कि पूर्वोक्त पांचवे प्रमाण में आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में “अति विद्वायते ।” कह कर ब्राह्मण का पाठ उद्धृत किया गया है । उस में मन्त्रकृत शब्द आया है । उसे ही श्रौत-सूत्र वाले ने उसी अर्थ में प्रयुक्त कर लिया है ।

अब यह निर्विवाद है कि श्रौतमूत्रों के बनने से बहुत काल पूर्व ही सब मन्त्र विद्यमान थे और ऐक्षमूलर के अनुसार को मन्त्रकाल व्यतीत हो चुका था, अतः यदि मन्त्रकृत का अर्थ वही है जो पूर्वपक्षी ने किया है तो उसके मतानुसार मूत्रकाल में भी मन्त्रकृत कृपि हो जायेंगे। यह बात सर्वथा निस्सार है, अर्थहीन है, नहीं, नहीं विद्वानों की इष्टि में कल्पनातीत है, हैय है। अतएव इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ स्वेजना चाहिये जो इन स्थनों में सुसंगत हो सके।

सायण की सम्मति और उभ की भूल।

“नम ऋषिभ्यः ······” वाले नैतिरीयारगय के वाक्य का सायण ने यह अर्थ किया है : (मूल वाक्य हमने पूर्वपक्ष के चतुर्थ प्रमाण में दे दिया है।) —

“मन्त्रकृदभ्यः मन्त्रं कुर्वन्तीति मन्त्रकृतः। यद्यप्यपौरुषेयेदेकर्त्तरो न सन्ति, तथापि कल्पादावीश्वरानुद्देश्य मन्त्राणां लब्धारो मन्त्रकृत् इत्युच्यन्ते।”

सायण के विचारानुसार कल्प के आदि में ही मन्त्रकृत कृपि हुए थे। हम पहले दिखा चुके हैं कि श्रौतमूत्रकार कई यज्ञों में मन्त्रकृत का वरण लिखते हैं। ये मन्त्रकृत लोग उनके काल में और उन से उत्तरवर्ती काल में भी हो सकते हैं, अतएव कल्प के आदि में ही उनका मानना सायण की भारी भूल है। अन्यत्र अर्थात् पूर्वपक्ष के तीसरे प्रमाण में उद्धृत ऐतेरेय ब्राह्मण के वचन का सायण ने यह अर्थ किया है—

“ऋपिरतीन्द्रियार्थदृष्टा मन्त्रकृत्करोति धातुस्तत्र दर्शनार्थः।”

६ । १ यहाँ पर सायण ने धात्वर्थ देकर आपत्ति को हटना चाहा है । परन्तु क्या आपत्ति हट गई ? इसे पाठक स्वयं विचार लें । इस विचारानुसार तो सब युगों में मन्त्रदृष्टा ऋषि हो जावेंगे, और यह बात सायणीय सिद्धान्त-विस्तृद्ध है ।

मन्त्रकृत शब्द का सत्यार्थ ।

मन्त्रकृत शब्द के तुल्य प्रत्ययमात्र में भेद रखने वाला मन्त्रकार शब्द है । इस का प्रयोग मानवगृहमूत्र में आया है । “दक्षिणत उद्दमुखो मन्त्रकारः” १ । ८ । २ अर्थात् दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख मन्त्रकार वेदे । यहाँ गृहमूत्र में इस शब्द का प्रयोग उन्हीं विचारों को लिये हुए है कि जिनके साथ यह श्रौतमूत्र और ब्राह्मणादि में आया है । इस को अन्यथा करना वेदिक वाङ्मय की शृङ्खला को तोड़ना होगा । सम्भव है कई विद्रान् पूर्वलिखित परिणामों से भयभीत हो कर इस पर अपनी टीका टिप्पणी करें, पर जो विद्रान् निष्पत्ति दृष्टि से हमारे लेख को पढ़ रहे होंगे, उन्हें निश्चय हो जायगा कि मन्त्रकृत वा मन्त्रकार शब्द की प्रत्यत्ति वेद से लेकर गृहमूत्रों के कल तक एकार्थ में हुई है । अब विचार करना होगा कि वह अर्थ क्या है ?

कार अन्त वाले अनेक शब्द ।

साधारण भाषा में सुवर्णकार, चर्मकार, लोहकार आदि अनेक शब्द आते हैं । उन सब का यही अर्थ है सुवर्ण, चर्म,

लोह आदि पदार्थों को लेकर जो पुरुष उनका रूपान्तर कर देते हैं वही इन शब्दों से पुकारे जाते हैं । वे लोग सुवर्ण आदि को बनाते नहीं प्रत्युत विद्यमान सुवर्ण का रूप परिवर्तन कर देते हैं । इसी प्रकार ग्रन्थवार, चित्रकार, मूत्रकार आदि शब्द हैं । ये शब्द स्थूल रूप से साधारण पुरुष को यही ज्ञान देते हैं कि कोई नृतन-रचना की जाती है, परन्तु वास्तविक मूल्य हृषि से देखा जाय तो संसार में नृतन पदार्थ कोई है ही नहीं । सब पदार्थों में रूप का परिवर्तन मात्र किया जारहा है अतः उन २ नृतन प्रतीत होने वाले पदार्थों के कर्ता वस्तुतः उन २ पदार्थों का जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं । इसी भाव को लेकर भगवान् पतञ्जलि मुनि ने यह लिखा था—“करोतिरय-मभूतप्रादुर्भावे हृषिः” ६ । ७ । ८ अर्थात् कृत्र धातु अभूत=अप्रसिद्ध के प्रादुर्भाव=प्रसिद्ध होने में (ग्रन्थों में प्रयुक्त) देखा जाता है । इसी प्रकार मन्त्रकार के सीधे अर्थ हैं (१) मन्त्र, तथा मन्त्रार्थ अध्यापक (२) मन्त्रों को लेकर विनियोग का बताने वाला (३) यज्ञादि में मन्त्रों के प्रयोजन का निर्देश करने वाला तथा (४) प्राचीन मन्त्रों को लेकर उन का नया जोड़ तोड़ कर उन का विशेष भाव बताने वाला वा (५) यज्ञार्थ विचारक ।

उपर्युक्त अर्थों में ही मन्त्रकृत शब्द

पूर्वपक्ष के सारे प्रमाणों में आया है । तारण्ड्य महा-ग्रासण वाले दूसरे प्रमाण के आगे कहा है “ते देवा अब्र-

वन्नेपवाव पिता यो मन्त्रकृदिति ” १३ । ३ । २५ । इसी का अर्थ मनुस्मृति में किया है “ देवाश्चैतान्समेत्योचुः……… …… ” “ …… पिता भवति मन्त्रदः ” २ । १५२, १५३ । यहाँ मन्त्रद=मन्त्रदेने अर्थात् पढ़ाने वाला ही मन्त्र-कृत बताया गया है । इस अर्थ में किसी को आपत्ति न माननी चाहिये क्योंकि प्रकरण भी आचार्य=श्रेदाध्यापक की स्तुती की जा रहा है । मन्त्रकृत का अर्थ मन्त्रद कहा गया है । इसे हम स्पष्ट कर चुके हैं । इस पर भी यदि कोई मन्त्रद का अर्थ मन्त्र बनाने वाला करे तो उसे मनु २ । १४६ देखना चाहिये । वहाँ कहा है—

“ उत्पादक ब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्मजन्य हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥”

ब्रह्मद=श्रेदाध्यापक पिता अर्थात् आचार्य उत्पादक पिता से बड़ा है ।

किए प्रत्ययान्त अन्य अनेक शब्द जो ऋग्वेदादि में आये हैं उन से भी यही परिणाम निकलता है । देखो वपद्कृति १।१४।८ सुकृततरः १।३।१४ तनूकृत १ । ३१ । ८ ऋषिकृत १।३।१६ ज्योतिष्कृत १।५०।४ पुरुकृत १।५३।३ मासकृत १।१०५।१८ पथिकृत २।२३।६ ब्रह्मकृतः ७।३२।२ स्तेयकृत ७।१०४।१० भद्रकृत ८।१४।११ पितुकृततरभ्यः १०।७६।५ । इन शब्दों में कहीं किसी गुण और

कहीं किसी द्रव्य के प्रकट करने का भाव मिलता है। यदि इस रूप से इन शब्दों का अर्थ न समझा जायगा तो पूर्वपक्ष वालों को इस बात का उत्तर देना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जायगा कि किस प्रकार वृद्धमूत्र और श्रौतमूत्रों के काल में भी मन्त्रकार विद्यमान् हो सकते हैं।

द्वितीय पूर्वपक्ष । मन्त्र-द्रष्टा शब्द ।

जिन ऋषियों का नाम मन्त्रों के ऊपर लिखा है वही उन मन्त्रों के रचने वाले हैं। आर्य लोगों ने वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिये ही उन्हें मन्त्र-द्रष्टा नाम दे दिया है, वस्तुतः वे मन्त्रों के निर्माता थे। उन्हीं की स्तुतियों को एकत्र कर के पीछे से ऋग्वेद बनाया गया है।

उत्तर पक्ष ।

जो पाठक आर्येतिहास को जानते वा समझते हैं वे कदापि ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, जो इतिहास को पढ़ते हैं परं फिर उसे काल्पनिक कह देते हैं, उन्हीं के मन में ऐसी शङ्काएं उत्पन्न होती हैं। जो जैन वा बौद्ध आर्य सभ्यता के अति निकट थे, जो इस सभ्यता के घोर शब्द बने, जिन्होंने वेदादि शास्त्रों के उन्मूलन में कोई प्रयत्न न कोड़ा, जो पश्चिमीय स्कालरों की अपेक्षा अधिक संस्कृतज्ञ और सूक्ष्मदर्शी थे, वे भी तो वेदों का कर्ता कोई मनुष्य न बता सके। यदि वेदों का कर्ता कोई मनुष्य वा बहुत से मनुष्य होते तो पाश्चात्य लेखकों के अनुसार वैदिक काल से ७०० वर्ष पीछे होने वाले जैन अवश्य ही उन के नामादि लिख देते। और देखो आर्येतिहास क्या कहता है—

तै० सं० ३ । १ । ६
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्य-
भजत्सनाभानेदिष्ठं ब्रह्म-
चर्यं वसन्तं निरभजत्स
आगच्छत्सो ऽब्रवीत् कथा
मा निरभागिति न त्वा
निरभाच मित्यव्रवीदिष्ठि-
रस इमे सत्रमासने ते
॥ २६ ॥ सुवर्गं लोकं न
प्रजानन्ति तेभ्य इदं ब्राह्मणां
बूहि ते सुवर्गं लोकं यन्नो
य एषां पश्वस्ता २ स्तं
दाह्यन्तीति तदेभ्योऽब्र-
वीते सुवर्गं लोकं यन्नो
य एषां पश्व आसन्ता-
नस्मा अददुस्तं पशुभिश्च-
रन्तं यज्ञवास्ती हृष्ट आ॒
गच्छत्सो ब्रवीत् मम वा
इमे पश्व इत्यदर्त्ते ॥ ३ ॥

मै० सं० १।५।८
 मनोर्वै दश जाया आ-
 सन् दशपुत्रा नवपुत्राष-
 पुत्रा सप्तपुत्रा पट्पुत्रा पञ्च-
 पुत्रा चतुष्पुत्रा त्रिपुत्रा द्वि-
 पुत्रकैपुत्रा ये नवासः स्ता-
 नेक उपसमक्षामः ३६४२०
 तान्दी ये सप्त ताः स्वयो-
 ये षट् ताः शत्वारोऽथ वै
 पञ्चैव पञ्चासः रता इमाः
 पञ्च दशत इमान्यः नि-
 भजन्यदेव किंच मनोः स्व
 मार्गीनस्माने वै मनुमेवो-
 पाधावन्मना अनाथन्त
 नेभ्य एताः समिधः प्राय-
 द्वस्ताभिर्वै तं तान्निरदहः
 रताभिरनान्परा भावय
 न्परा पाप्मानं भ्रातृव्यं
 भावयति य एव विद्वा-
 नेताः समिध आदधाति ।

ऐऽ ब्राह्म ५ । १४
नाभानेदिष्टं शंसति ।
नाभानेदिष्टं कै मानवं ब्रह्म-
चये वगन्तं ध्रातरो निर-
भजन्त्यो इवाचारित्य किं
मन्यमभासेत्येतमेव नि-
ष्ठावमववदितारमित्य ब्रुवं-
स्तःमाभ्यायेत्तर्हि पितरं
पुत्रा निष्ठावो इववदितेत्ये-
वाचक्षन्ते । स पितरमें-
त्याचारीन त्वां ह वाव मक्षां
तना भाज्ञुरिति तं पिता
इवाचारीन्मा पुत्रक तदादधा
अंगिरसो वा इमे स्वर्गीय-
लोकाय भन्नमासते । ते
षां पष्टमेवाह गगत्य मृद्य-
ति । तानेते मत्ते षष्ठेऽहनि
शसय तेषां यत्प्रहर्मु मन्त्र-
परिवेदणं तसे म्वयेतो
दास्यन्तीति ।

उपर्युक्त नैतिरीय संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण वाली कथाएं ऐतिहासिक हैं। यैत्रायिणी वाली कथा में कुछ अलङ्कार मिला दिया गया है। यह उस की शैली से ही स्पष्ट ज्ञात होता है। हम यहां शुद्ध ऐतिहासिक कथाओं को लेंगे। इन दोनों में कोई वास्तविक भेद नहीं। दोनों ने मूल कथा का कुछ न भाग लिया है। कथा क्योंकि अतिप्राचीन है अतएव

ब्राह्मणकार ने अपने वेद सम्बन्धी इतिहास को ले लिया है और संहिता के ब्राह्मण भाग में ब्राह्मणरूप के किसी वाक्य का कथन किया गया है।

दोनों कथाओं का मिश्रित सारांश।

पिता की आज्ञा से मनु-पुत्रों ने पिता की सम्पत्ति बांट ली। उन का कनिष्ठ भ्राता नाभानेदिष्ट अभी ब्रह्मचर्य वास ही कर रहा था। घर आकर उस ने पिता से अपना भाग मांगा। अन्य द्रव्य वस्तु न रहने पर पिता ने उसे दो सूक्त (तानेते सूक्ते षष्ठेऽहनि शंसय) और एक ब्राह्मण (तेभ्य इदं ब्राह्मणं ज्ञाहि) दिया। वे सूक्त ऋग्वेद मण्डल दश के सुप्रसिद्ध द१—द२ हैं। वह ब्राह्मण कौन सा था? इस का लेख भट्ट-भास्करामिश्र ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में किया है। उस का वचन है—“किं पुनस्तद्ब्राह्मणम्। उच्यते—‘अवाप्यानि सन्तीति द्रप्सा अनुमन्त्रणीया अच्छावाक्यास्तोत्रियाश्शस्त्रियास्सत्यवदनश्रद्धाहोमादिनादिति’।” इस कथा के ध्यान पूर्वक देखने से एवं लग गया होगा कि ऋग्वेद के दशम मण्डल के द१ और द२ सूक्त मनु को ज्ञात थे। उसी ने ये सूक्त अपने पुत्र को दिये। अब कात्यायन अपनी ऋग्वेदीय सर्वानुक्रमणी में कहता है—“इदमित्था (१०। ६१) सप्ताधिका नाभानेदिष्टो मानवो वैश्वदेवं तत्।” अर्थात् “इदमित्था” प्रतीक वाले द१ वें सूक्त का नाभानेदिष्ट ऋषि है।

६२वें सूक्त का भी नाभानेदिष्ठ ही ऋषि है। इतने लेख से सिद्ध हो जाता है कि यथापि नाभानेदिष्ठ इन दोनों सूक्तों का ऋषि है, और ६१वें सूक्त के अठारहवें मन्त्र में उस का नाम भी आता है, तथापि वह इन सूक्तों का निर्माता नहीं। ये सूक्त तो उस से पहले भी विद्यमान थे।

(प्रश्न) ये सूक्त पिता अर्थात् मनु ने स्वयं बनाये होंगे और अपने पुत्र की प्रसन्नतार्थ उस का नाम वीच में डाल दिया होगा। पिता ने ही पुत्र की प्रसिद्धि के लिये इन सूक्तों को उस के नाम से विख्यात किया होगा।

(उत्तर) शोक, अत्यन्त शोक ! तुम लोग अपनी नास्तिकता से इतने गिर गये हो कि आर्यों सदृश सत्यवक्ता लोगों और फिर उन के परम सत्यनिष्ठ ऋषियों में भी अनृतवाद का दोष आरोपण करते हो। यदि तुम्हारे मतानुसार वेद के अन्य सूक्त द्रष्टा ऋषियों के ही निर्मित हैं तो इसी में आपत्ति आते देख कर ऐसी कल्पना करने लगे हो। पुरातन आर्य ऋषियों का कोई पिता और कोई पुत्र ऐसी वात को स्वीकार न कर सकता था।

नाभानेदिष्ठ का काल ।

यह कथा अतिप्राचीन है। इतिहास में इस के काल की साक्षी इस मन्वन्तर के आरम्भ में मिलती है। वैवस्वत मनु के दश पुत्र थे। नव पुत्र और एक कन्या। नाभानेदिष्ठ उन सब में से छोटा था। महाभारत में इन दशों के नाम निम्न लिखित प्रकार से आये हैं।

वेनं धृष्णुं नरिष्यन्तं नाभागेऽवाकुमेव च ॥१८॥

कारुपमथ शर्याति तथा चैवाप्टमीमिलाम् ।

पृष्ठं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मपरायणम् ॥१९॥

नाभानेदिर्दृदशमान्मनोः पुत्रान्वचक्षते ।

आदिर्पर्व अ० ६६ ।

मन्वन्तरों के विवाद को हम यहां न उठावेंगे । पर इतने लेख से इतना तो सुस्पष्ट हो जाता है कि नाभानेदिष्ट आर्यों के इतिहासानुसार बहुत पुराने काल का व्यक्ति है । महाभारत रामायण, सूत्र, और ब्राह्मणों से भी बहुत पूर्वकालीन है । पाश्चात्य लेखकों द्वारा निश्चित काल्पनिक वैदिक-काल (१२०० पूर्व विक्रम) से सहस्रों वर्ष पहले का है । ऐसे मन्त्र-दृष्टा ऋषि ने भी वेद के दो सूक्तों को अपने पूज्य पिता से प्राप्त किया, कि जिस ने सारा ऋग्वेद अपने पूर्वजों से पढ़ा था ।

एक और प्रमाण ।

तान्वा एतान् सम्पातान् विश्वामित्रः प्रथमपश्यत् । एवा त्वामिन्द्र वज्रिभत्र स०४।१६……………… । तान् विश्वामित्रेण दृष्टान् वादेवो असृजत । गो० ब्रा० ६।१

१ कुम्भघोण संस्करण में “नाभागारिष्ट” पाठ छपा है । विष्णुपुराण अंश ३ में भी वैवस्वत मनु के पुत्रों का नामोल्लेख है । इस के एक अन्यर्थ संस्करण में नाभागोदिष्ट नाम छपा है । विलसन ने इस पुराण की अंग्रेज़ी ट्रीका में शुद्ध नाम नाभानेदिष्ट” दिया है ।

ऐतरेय ब्राह्मण द३।८ में भी कुछ भेद के साथ यही वाक्य आया है। (अर्थ) इन सम्पात ऋचाओं को विश्वामित्र ने पहले देखा। वह ऋग्वेद ४।९६ आदि मूक्त है। तत्पृच्छात् विश्वामित्र से देखी हुई इन्हीं सम्पात ऋचाओं को वामदेव ने जन साधारण में फैला दिया। ऋग्वेदानुक्रमणी के अनुसार इन ऋचाओं का ऋषि वामदेव है विश्वामित्र नहीं।

इस ब्राह्मण वचन से निम्नविवित परिणाम निकलते हैं—

(१) अनेक ऋचाएं वा मूक्त ऐसे हैं जिन्हें कई ऋषियों ने देखा। 'प्रथमम्' शब्द स्पष्ट कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग करने से ब्राह्मणकार का यही अभिप्राय है कि वामदेव ने भी उन ऋचाओं को देखा था, पर सब से पूर्व विश्वामित्र ने ही उन्हें देखा।

(२) मन्त्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हैं उन का नाम मन्त्रार्थ दृष्टा होने से ही नहीं लिखा गया, प्रत्युत सब से पहले मन्त्रार्थ प्रचारक होने से भी लिखा गया है।

ऋषि दयानन्द की सम्मति ।

उपर्युक्त दोनों भावों से पूर्ण और कदाचित् ऐसे ही ब्राह्मण वाक्यों को ध्यान में रखते हुए ऋषि दयानन्द ने एक निरुक्त वाक्य का अर्थ किया था—‘जिस २ मन्त्रार्थ का दर्शन जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिस के पहले उस मन्त्र

का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था, किया, और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अद्यावधि उम २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है । ” सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुद्घास ।

इस प्रमाण से भी यही बात स्थिर होती है कि मन्त्र-द्रष्टा ऋषि मन्त्रों के बनाने वाले न थे, प्रत्युत वेदमन्त्र तो उन से पहले भी विद्यमान थे । वे तो मन्त्रार्थ द्रष्टा तथा मन्त्रार्थाध्यापक वा प्रचारक थे । इसी भाव को लेकर वात्स्यायन ने कहा था, “आप्ता खलु साक्षात् कृतधर्मा ।” न्याय ३ । १ । ७ अर्थात् धर्म को साक्षात् किये हुए आप होते हैं । तथा च “य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ।” न्याय २ । २ । ६७ अर्थात् जो ही आप वेद मन्त्रों के अर्थद्रष्टा और उन के प्रवचनकर्ता हैं । अतएव मन्त्रद्रष्टाओं को मन्त्रार्थद्रष्टा और मन्त्रार्थ प्रवचन कर्ता जानना चाहिये, न कि मन्त्र बनाने वाले । जो इस से विपरीत जाने, समझो वह आर्ष साहित्य से अनिभग्न है और उस का कहा प्रमाण नहीं ।

इस की पुष्टि में और विचार ।

ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त हैं जिन के किंदो, तीन अथवा चार ऋषि हैं । उदाहरणार्थ १ । १०५, २ । २८, ३ । २३, ३ । ५४, ४ । ४३, ५ । २४, ५ । ४४, ८ । १४, ६ । ६८, १० । २४ आदि सूक्तों को देखो । अब क्या प्रत्येक ऋषि ने एक

समान सूक्त बना लिया ? (पूर्वपत्ती) उन में से प्रत्येक ऋषि ने एक एक, दो दो मन्त्र बनाये होंगे, अतएव उन सब का नाम सूक्त के ऊपर लिख दिया गया ।

(उत्तर) यह सर्वथा असत्य है । अन्य सूक्तों में जिस २ ऋषि ने जिस २ मन्त्र का अर्थ देखा, उस २ मन्त्र के साथ उस का नाम पृथक् रूप से सदा से लिखा चला आता है । उपर्युक्त सूक्तों में तो प्रत्येक ऋषि सूक्त के सारे २ मन्त्रों का द्रष्टा है । संसार भर में दो, तीन, चार पुरुष एक सी वाक्य रचना नहीं कर सकते अतः वे सब ऋषि मन्त्रार्थ देखने वाले तो भले ही माने जा सकते हैं, मन्त्र बनाने वाले नहीं । अब भी यदि कोई पुरुष उन्हीं सूक्तों को समाधि द्वारा शब्दब्रह्म को प्रत्यक्ष करके अर्थ प्रकाशित कर दें, और अन्य ऋषि विद्यमान हों तो वे उसे ऋषि स्वीकार कर के उस सूक्त के साथ उस का नाम लगा देंगे ।

(पूर्वपत्ती) जहाँ सूक्तों पर दो, तीन अथवा चार ऋषि दिये हुए हैं वहाँ सन्देहार्थक ‘वा’ का प्रयोग किया गया है । इससे निश्चय होता है कि अनुक्रमणी बनने के काल में लोग कई सूक्तों के सम्बन्ध में इतिहास को भूल चुके थे । उन्हें ज्ञात न रहा था, कि निश्चय रूप से किस सूक्त का कौन द्रष्टा है ? अतएव उन्होंने ‘वा’ शब्द का प्रयोग करके यही दर्शाया है कि उन के काल तक ऐतिह्य की झूँझला फूट चुकी थी और संशय होने उत्पन्न हो गये थे ।

(उत्तर) यह सत्य है कि 'वा' विचारणार्थ में आता है, पर अर्पणक्रमणीकार का अभिभाव सन्देह से नहीं है। उस ने तो 'वा' समुच्चयार्थ में लिया है। यह अर्थ निःस्क १४ में आया है। शर्वानुक्रमणी में 'वा' एक परिभासा है और कात्यायन ने अपने परिभाषाग्रन्थ में इस का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है, उन का मूल है—“ऋग्विष्णान्यस्याद्गेरवाविशिष्टः” १२१। अर्थात् 'वा' से पिछले ऋग्वि की एक सूक्त में अनुदत्ति आती है। वेदाभ्यास में ऋषि आदि का जानना परमावश्यक है। स्वयं कात्यायन ने कहा है—“न वेतज्ञानसृते श्रौदस्यार्तकर्म-धतिदिः।” १।१। नहीं ऋषि आदि के ज्ञानविना श्रौत, स्वार्त कर्म की सिद्धि। अतएव श्रौत स्वार्त कर्म में सूक्तों का प्रयोग करते हुए जहाँ कई कृति कहे हों वहाँ किसी एक का ज्ञान पर्याप्त है। हाँ, इतिहास को सुरक्षित रखने के लिये कात्यायन के लिये यह आवश्यक था कि जितने भी ऋषियों ने किसी एक सूक्त का अर्थ देखा वह उन सब के लाग दे देता। कात्यायन का 'वा' कर्म-प्रयोग में किसी एक ऋषि के सम्बन्ध में लिकर्य करने से है, उन के अर्थदृष्टा होने के सन्देह को प्रकट करने के लिये नहीं।

यदि इस पर भी कोई अपना हठ न छोड़े तो वह ऋग्वेद शास्त्र को देखे। उस के ऋषि के सम्बन्ध में कात्यायन का वचन है “अन्वरीप ऋग्विषाच।” और आर्पानुक्रमणी में शौनक का भी श्लोक है—

अम्बरीषोऽभि नःसूक्ते मान्धातृतनयस्तथा ।

भारद्वाज ऋजिश्वा च तावेनौसहितावृप्यी ॥३४॥

इन दोनों स्थलों में ‘च’ निश्चय ही समुच्चयार्थक है। पुनश्च ऋग्वेद दा१४ के अनुक्रमणी में दो ऋषि कहे हैं “गौपूकत्यश्च-
मूकिनौ काग्वायनौ ।” अर्थात् कग्वगोत्री गौपूकि और
अश्वमूकि। ऋग्वेद मण्डल आठ मूक्त चौदह के प्रथम और
पञ्चम मन्त्र सामवेद पूर्वार्चिक प्र० २१३ के ७ और ८ हैं। इन
के ऋषि भी यही दोनों हैं। इस में आर्षेयब्राह्मण २१२२ की
साक्षी भी विद्यमान है। ‘गौपूकं चाश्वमूकं च ।’ अर्थात् इन दो
ऋषियों ने यह दो मन्त्र देखे।

अनुक्रमणी की एक और साक्षी ।

ऋग्वेद ११०० में कुल उन्नीस मन्त्र हैं। उन के पांच
ऋषि हैं। नाम हैं उन के (१) ऋज्राश्व (२) अम्बरीष (३)
सहदेव (४) भयमान (५) सुराधा। ये सब महाराज दृष्टागिर के
पुत्र थे। ये सब नाम इसी मूक्त के २७ वें मन्त्र में आते हैं।

**एतत्थत्त इन्द्र वृष्णि उक्थं वार्षाणिरा अभिगृणन्ति
राधः । ऋज्राश्वः प्रष्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः
सुराधाः ॥ १७ ॥**

इस मन्त्र से कई परिणाम निकल सकते हैं। उन में से
दो निम्नलिखित हैं।

(१) यदि ये ऋषि इस मूक्त के बनाने वाले थे तो उन
में से प्रत्येक ने कुछ २ मन्त्र बनाये होंगे। पुनः सब ने सम्मति

करके एक मन्त्र में अपने नाम अपने पिता के पते सहित दे दिये। भ्राता होने के कारण सब ने यही निश्चय किया होगा कि हम सब ही इस मूल्क के ऋषि बनें, अन्यथा पांच पुरुषों का एक ही वाक्य का रचना असम्भव है। एक की रचना में चार सम्मति तो दे सकते हैं।

(२) वे भ्राता सदा ऐसा नहीं करते थे। पूर्वोद्धृत शास्त्र के अम्बरीप, ऋजिश्वा दो ऋषि हैं। यह अम्बरीप भी वृषागिर का पुत्र है। यहां इस का साथी ऋजिश्वा है। कोई ऋज्ञाश्व और ऋजिश्वा को एक न समझे क्योंकि मन्त्रों में दोनों शब्द भिन्न २ हैं।

इन परिणामों की परीक्षा।

ऋज्ञाश्व, भयमान आदि शब्दों को वेद में अन्यत्र देख कर निश्चय हो जाता है कि ये कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं। “ऋज्ञाश्वं तं पितान्यं चकार।” ऋ० १११६। उस ऋज्ञाश्व को पिता ने अन्ध किया। यह अर्थ है जो पूर्वपक्षी इस मन्त्र का करेगा। अब विद्रानों को विचारना चाहिये कि क्या मन्त्र-द्रष्टा पुत्र को वा ऐसा योग्य बनने वाले को एक आर्यमहाराज कभी ऐसा दराड़ देगा। और यदि वह पुत्र अपराधी था तो वह पापी होने से इतना योग्य न हो सकता था। यहां इतना कहना पर्याप्त होगा कि मन्त्रों में ये व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं हैं। यह आगे प्रमाणपूर्वक लिखा जायगा।

ये दोनों परिणाम अन्य सब इतिहासों की साज्जी में कि वेद तो वृषागिर आदि सम्राटों से बहुत पूर्व विवरण थे, गिर जाते हैं। तब एक तीसरा परिणाम निकलता है : किसी वृषागिर राजपिंडि ने अपने पुत्रों का ऋत्राश्व आदि क्रमशः नाम रखा। बड़े होने पर उन में से प्रत्येक इस मूर्ति का द्रष्टा बना अथवा उन पांच वार्षागिरों ने मन्त्रार्थ देखने के पीछे अपने ये भी नाम रख लिये। यही बात पीछे इतिहास में मुरक्कित की गई।

एक सूक्त के सौ ऋषि ।

ऋग्वेद शाद्द के सम्बन्ध में अनुक्रमणी का वचन है— “पवस्व गतं वैखानसाः” अर्थात् ‘पवस्व’ प्रतीक वाले इस मूर्ति के सौ वैखानस ऋषि हैं। इस मूर्ति में कुल तीस मन्त्र हैं। अब यदि अनुक्रमणी सत्य है और जब कि सौ ऋषि सारे मूर्ति के ही ऋषि हैं तो इस से सीधा परिणाम यही निकलता है कि किसी विखनस मुनि के शिष्य परम्परा में आने वाले वैखानस नाम के ऋषि भिन्न २ समयों पर इस मूर्ति के अर्थ-द्रष्टा हो चुके हैं। इन वैखानस नामक वानप्रस्थों का वर्णन मनुसमृति आदि अनेक आर्षग्रन्थों में आ चुका है। आर्षानुक्रमणी में भी इस विधि पर ऐसा ही लेख है—

असिद्धं गोत्रास्तु पवस्वसूक्तं वैखानसा नाम शतं विदुस्ते ॥१६॥

सम्भव है यहां ‘शतं’ शब्द वहु संख्या वाचक हो। अस्तु, हमारे अभिप्राय में कोई भेद नहीं आता। सौ व्यक्तियों का सदृश वाक्य-रचना करना असम्भव है। तथाच दो चार ने

वाक्य-रचना की हो और सौ या बहुतों ने उस में सम्मति दी हो, यह इतिहास से किसी प्रकार भी प्रमाणित नहीं होता।

एक ही मन्त्र के भिन्न २ ऋषि ।

जहाँ ऋग्वेद में एक २ मन्त्र के दो वा अधिक ऋषि हैं, वहाँ भिन्न २ मण्डलों और मन्त्रों में आने वाले मन्त्रसमूहों का एक २ सदृश मन्त्र के भी भिन्न २ ऋषि हैं। हम ऐसे कतिपय उदाहरण बहुमफीलटरचित 'ऋग्वेद रूपीयीशन्स' के द्वितीय भाग के आराम्भक पृष्ठों में से देते हैं।

१२३१२१—२२ मेदातिथि.

३१८८—११ विश्वामित्र.

६१४७१२, १३ गर्ग.

१११००११६ जाग्राथ आदि भ्राता.

३११२३ विश्वामित्र.

१११३१६ मेधातिथि.

१०८८—६ विशिग तथा सिन्धुदीप.

३१८८—११ विष्ट.

१०११३११६, ७ सुकीर्ति.

१११०३१११ कुल.

३१५१७ उत्कील.

४४४८ वसुश्रुत.

यहाँ प्रश्न होता है कि क्या भिन्न २ ऋषियों ने सदृश-मन्त्र-रचना की? हम तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऋषि मन्त्र-रचयिता नहीं थे, प्रत्युत मन्त्रार्थ-द्रष्टा थे। पर पूर्वपक्षी कहता है—
“ पुनरुक्तियों द्वारा प्रदर्शित अनुक्रमणी-विवरणों की अप्रमाणिता ”—

सर्वानुक्रमणीके विवरण जो कात्यायन की बताई जाती है, सब से अधिक पुनरुक्तियों के विषय में अपने प्रमाण की सन्देहपरता प्रकट करते हैं।

जैसा सामान्यतया ज्ञात है उनका सूक्तों के रचयिताओं (authors) का इतिवृत्त वैदिक कवियों की प्रधान-कुलों के सम्बन्ध में सत्यऐतिथ्य के अल्प कोश पर कुछ अंशों में आश्रित है। परन्तु उनके अधिक निश्चित विवरण अधिकांश में ओही कल्पनाएं हो जाती हैं। विशेषतया, अनुक्रमणी का सुदृढ़ संकल्प होता है कि प्रशान्त निरपेक्षता से एक ही ऋचा के दो या अधिक रचयिता बताए जायें, अथवा दो या अधिक देवता कहे जायें, चाहे, वह ऋचा एक ही मण्डल या दूसरे मण्डल में किसी सम्बन्ध में ही आई हो। आप्रीमन्त्र ३। ४। ८-११=७। २। ८-११ तीसरे मण्डल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं; सातवें मण्डल में वसिष्ठ मैत्रावरुणि के। और ऐसा ही अनेक स्थलों में मिलता है, जैसा कि इस ग्रन्थ (ऋग्वेद रैपीटीशन्स) के मूल भाग में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक ऋचा के साथ अनुक्रमणी का विवरण दिया गया है।

ऋचाओं में कहे हुए रचयिता...मों का समालोचकदृष्टि से महत्व—

ऐसी दशा में अनुक्रमणी के दिखावटी ऐतिहासिक विवरण पुनर्शक्तियों के काल या सापेक्ष मूल्य के निर्णय में सहायता नहीं होते। दूसरी ओर पुनरुक्त वाक्यों में आये हुए रचयिताओं के नाम कई बार उन के सापेक्ष काल पर प्रकाश डालते हैं। द्वारकाद का उत्तरार्ध 'भारद्वाजाः' नाम का वर्णन करता है; यह शब्द १०८८।१७ के अकेले विश्वामित्र सूक्त में गौण रूप से 'विश्वामित्राः' में बदला गया है।" (ऋग्वेद रैपीटीशन्स पृ० ६३४)

यह है सम्मति जो एक प्रसिद्ध पाताल देशस्थ प्रोफेसर अनुक्रमणी विवरणों के विषय में रखता है। हमने इस का लम्बा उद्धरण इस लिये दिया है कि इस की परीक्षा भले प्रकार हो सके। ऐसी ही सम्मति समस्त पाश्चात्यवेद-विषयक लेखकों

की है। इसका कारण भी है। अध्यात्म-विज्ञान-हीन पश्चिमीय लेखक जब एक २ वेदमन्त्र के अनेक ऋषि देखता है तो उस की बुद्धि में और कुछ आ भी नहीं सकता। ब्लूमफील्ड ने इन वाक्यों में हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित बातें कही हैं—

(१) सर्वानुक्रमणी के प्रमाण होने में बहुत सन्देह है, पर सब से अधिक सन्देह पुनरुक्तियों के विवरण विषय में है।

(२) अनुक्रमणी में सूक्तों के रचयिता दिये हैं।

(३) वैदिक कवियों की प्रधान कुलों के सम्बन्ध में कासायन का लेख कुछ २ सत्य ऐतिह्य पर आश्रित है।

(४) कासायन के अधिक निश्चित विवरण बाल-कल्प-नाएँ हैं।

(५) अनुक्रमणीकार कात्यायन जानबूझ कर एक ही ऋचा के दो वा अधिक रचयिता बताता है।

(६) आप्रीमन्त्र ३।४।८-१।=७।२।८-१। तीसरे मण्डल में विश्वामित्रगाथिन के कहे गये हैं, सातवें मण्डल में वासिपु मैत्रावरुणि के।

(७) वेद-मन्त्रों में भी मन्त्र-रचयिताओं के नाम हैं।

(८) जहाँ वे पुनरुक्त वाक्यों में आते हैं वहाँ मन्त्रों के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं, जैसे ६।२।४।८ और

१०।८६।७ में भारद्वाजाः और विश्वमित्रः क्रमशः नाम आये हैं। अब इन पर विचार—

(?) हम इस बात को सही स्थीकार करते यदि किन्हीं प्रबल प्रमाणों के आवार पर कही गई होती। सम्प्रति तो यह लेखक की निराधार व्यापना का उप्लेखमात्र है। सम्भव है सर्वानुक्रमणी में पाठमेदों के कारण वा अधोध-लेखक-प्रमाद से कोई बात अशुद्ध होगई हो, वा कोई लेख छूट गया हो, यद्यपि इस के लिये भी अधिक स्थान नहीं है, तथापि त्रृप्ति परम्परा के विषय में हम निश्चित हैं कि सर्वानुक्रमणी के कर्ता कात्यायन ने सारा इतिहास ग्राह्यग्रन्थों से प्राप्त किया था, जिन में कि गत्र-पृष्ठ अविष्यों के कान से ही इतिहास की अदृष्ट शङ्खभा चर्ची आती थी।

सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन श्रीतमूलकर्ता वा वैयाकरण हो या न हो, सर्वानुक्रमणी की भाषा में उस ने छुश्र वैदिक प्रयोग क्यों न किये हों, तो भी ग्राह्यणों को उद्भृत करने के कारण वह ग्राह्यणों से पीछे का ही है। उस ने ऋषियों का इतिहास ग्राह्यणों से लिया है। जहां कहीं उस इतिहास में मत-भेद था, वह उस ने स्वयं दर्शा दिया है। यथा “मोषु (ऋ० ७।३२) सप्ताविंशति इसैरग्नौ प्राञ्जिष्यमाणः शक्तिरसं प्रगाथमा-रेभे। सोर्धर्वं उक्तेऽद्यत तं पुत्रोक्तं वसिष्ठः समापयते ति शाश्वायगक्षम् । वसिष्ठुस्य हतपुत्रस्यार्थमिति तांडकम् ।”

‘अर्थात् ७।३२ में सताईस ऋचा हैं। सुदास के पुत्रों से अशि में केका गया शक्ति अन्त्य प्रगाथ=बृहति छन्द वाली ऋचाओं को देखता हुआ। वह आधी ऋचा के कहने पर जल गया। पुत्र से कही हुई उस आधी ऋचा को पिता वसिष्ठ ने समाप्त किया। यह शास्त्रायनक मानते हैं। हतपुत्र वसिष्ठ ही इन का ऋषि है यह तारिडन मानते हैं।’

काशायन के उपर्युक्त वचन पर पड़गुरुशिष्य ने एक श्लोकबद्ध इतिहास दिया है। जब उक उस इतिहास वा काशायन के वचन का मूल न मिले हम इस पर कुछ न कहेंगे। हमारा प्रयोजन इस वचन के उद्धृत करने से यही है कि काशायन को जहाँ कहीं ब्राह्मणग्रन्थों के कथन में मतभेद मिला, वहाँ उस ने उसे निःसंकोच दे दिया। यदि अन्यत्र भी कहीं ऐसा होता तो वह उसे अवश्य प्रकट करता। इस स्थल पर भी कोई ऐसा मतभेद नहीं है। इसी प्रकारण में हम पूर्व लिख चुके हैं कि कुछ सम्पात ऋचाएं विश्वामित्र ने देखी थीं। उनका प्रचार वामदेव ने कर दिया। अतएव उनका ऋषि भी वामदेव ही हुआ। शक्ति के जनने आदि के सम्बन्ध में अभी हम कुछ नहीं कहते, पर सम्भव है पिता वसिष्ठ और पुत्र शक्ति ने दो भिन्न स्थानों में एक ही काल में इन ऋचाओं का अर्थ दर्शाया हो। एक देश वाले शास्त्रायनकों ने एक बात लिखी हो और अन्य देशीय तारिडनों ने दूसरी। काशायन ने दोनों बातें लिख कर विकल्प दिखा दिया है।

यदि आज ऋग्वेदीय सब ब्राह्मण विचारन होते तो कदाचित् अनुक्रमणी की ऋषियों सम्बन्धी सब वातें इस उन में दिखा सकते। फिर भी ऐतरेय ब्राह्मण के पाठक जानते हैं कि सर्वानुक्रमणी की बहुत सी वातें वहाँ से ली गई हैं। कौषीतकी ब्राह्मण भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री रखता है।

सर्वानुक्रमणी के आधार ब्राह्मणों की प्राचीनता।

ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण कितने प्राचीन हैं, इस विषय पर चिरकाल से विवाद चला आता है। कशिकाकार ज्यादिस, आदि का मत है कि शतपथ ऐतरेयादि ब्राह्मणों से नवीन है। भाष्यकार पतञ्जलि, दयानन्द सरस्वति और बृहलर की सम्पत्ति में ऐतरेय, शतपथादि सब ब्राह्मण प्रायः समकालीन हैं। दोनों का आधार महाभाष्य का एक वार्त्तिक है।

पाणिनीय मूल “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु।” ४।३।१०५ पर भाष्यकारने एक वार्त्तिक दिया है—“याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेध-स्तुल्यकालत्वात्” इस पर दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायी की व्रति में लिखते हैं—“ज्यादिसो जानाति याज्ञवल्क्यानि पुराण-प्रोक्तानि न सन्ति। तदिदं को मर्षयेत्। यदा याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि, तदैव तदैव ज्ञात्यायनादिभिरपि।” अर्थात् भाष्वावि, ऐतरेय, शास्त्रायन, शतपथादि ब्राह्मणों का समकाल में प्रवचन हुआ है। बृहलर ने कहा है—

“I understand Katyayana to say that the Brahmanas proclaimed by Yajnavalkya, etc, ...are not,

.....modern works, but are as old as those which Panini had in view. (महाभाष्य, तृतीय, भूमिका पृ० ११)

इस विचार को अब प्रायः विद्रान मानते हैं, अतः दोनों पक्षों की युक्तियाँ नहीं ढी गईं।

जब सब ब्राह्मण लगभग समकालीन हो जायें तो प्रश्न उठता है कि उनका मन्त्र-दृष्टा ऋषियों के काल से कितना अन्तर है? मैकडानल प्रभृति पाश्चाय लेखक एक स्वर से कह रहे हैं कि 'ब्राह्मण इन्थ मन्त्रदृष्टा ऋषियों से बहुत पिछले काल के हैं। ब्राह्मणों के निर्सायकाल में तो ऋषि-प्रदर्शित अर्थ भी बहुत सा भूल चुका था। ऋषियों के इतिहास का ज्ञान लुप्त हो रहा था, इत्यादि।' क्या यह सत्य है? हम कहेंगे, नहीं। देखो ब्राह्मण में क्या आया है—जब याज्ञवल्क्य गार्गी के दूसरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दे चुके तो वह वाचक्रवी पुनः बोली कि "कस्मिन्नन्वकाश ओतश्च प्रोतश्चेति?" अर्थात् आकाश किस में ओत और प्रोत है? तब वे ब्रह्मनिष्ठ भगवान् याज्ञवल्क्य "स हो वाचैतद्वै तदक्षरं गर्गि! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलया।" शतपथ १४१६७,८ बोले, हे गार्गि! ब्रह्मयेता उसे ही अक्षर कहते हैं (जिस में आकाशादि सब कुछ ओत प्रोत है) जो अस्थूल इत्यादि है।

यजुर्वेदीय-शतपथब्राह्मण में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो सम्भाषण ऊपर दिया गया है, उसका मूल यजुर्वेद के एक मन्त्र में मिलता है।

वैनस्तत्पश्य निहितं युहा सद्य ग्रविश्च भवत्येकनीडम् ।
तस्मि निदृष्टं सं च विचैति सर्वृष्टं स अतः
प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ ३२।८॥

इस मन्त्र के अन्तिम शब्द ही ब्राह्मण के कथन में मिलते हैं। यजुर्वेदीय सर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का ऋषि स्वयम्भू ब्रह्म कहा गया है। “सर्वमेधं ब्रह्मस्वयंभैत्तत्।” अर्थात् सर्वमेध यज्ञ सम्बन्धी इन मन्त्रों को ब्रह्म स्वयम्भू ने देखा। यह स्वयम्भू ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण की ऋषि परम्परा का मूल है। उसी से यह विद्या क्रमशः याज्ञवल्क्य तक पहुंची। याज्ञवल्क्य ही शतपथ ब्राह्मण का प्रवचनकर्ता माना जाता है। अतः हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता के पास वैदिक ऋषियों के काल से वैदिक ऐतिव्य की अटूट शृङ्खला गुरुपरम्परा द्वारा चली आरही थी। ऐसी स्थिती में सर्वानुक्रमणीयों की साक्षी को सन्देहास्पद कहना वैदिक साहित्य को पक्षपातान्ध होकर भ्रष्ट करने की चेष्टा करना है।

(२) ब्लूमफील्ड का कथन है कि ‘सर्वानुक्रमणी में सूक्तों के रचयिता (आर्थर्स) दिये हैं।’ हमें तो इस का कोई प्रमाण मिला नहीं, सम्भव है उनकी दृष्टि में आया हो। सर्वानुक्रमणी के एक वाक्य से साधारण पाठकों को भ्रान्ति हो सकती है, “यस्य वाक्यं स ऋषिः ।” २।४॥ अर्थात् जिस का (दृष्टि) वाक्य हो वह ऋषि होता है। ‘दृष्टि’ हम ने इस लिये प्रयुक्त

किया है कि स्वयं कात्यायन इस कागदी अर्थ करता है—“गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत ।” गृत्समद ने दूसरा मण्डल देखा । वाक्यार्थ कर्ता के आभिशायानुकूल होना चाहिये, अतः पूर्ण वाक्य में दृष्ट शब्द अभिनृत है । कात्यायन ने अन्य वातों के समान यह बात भी ब्राह्मणों से ली है—

“त(प्रजापतिः)एतागृच्छमपश्यदापोरेवतीरिति ।” ऐ० ब्रा० २।१६
अर्थात् १०।३०।१२ को प्रजापति ने देखा । “एतत् कवपः सूक्तमपश्य-
त्यञ्चदशर्वं प्रदेवत्रा ।” अर्थात् कवप ने प्रदेवत्रा (१०।३०) पन्द्रह
ऋचा वाला सूक्त देखा । अन्यत्र “जनिषु उग्रः गौरिवीतिर्ह
वै शाक्त्य एतत्सूक्तमपश्यत ।” ऐ० ब्रा० ३।१६ अर्थात्
१०।७३ सूक्त को शक्ति के पुत्र गौरिवीति ने देखा । कात्याय-
नादि सर्वानुकूलयणीकार और महीदासादि ब्राह्मण-प्रवचन-कर्ता
सर्वत्र वेद मन्त्रों का देखा जाना ही मानते हैं । महीदास जी ने
तो वेद मन्त्रों को छोड़ कर किसी शाखा के मन्त्र के सम्बन्ध
में भी यही लिखा है—“एतां बृहस्पतिर्द्विपदामपश्यन् नयारोषाति
न ग्रभदिति ।” ऐ० ब्रा० ४।१० अर्थात् बृहस्पति ने इस द्विपदा
को देखा । यास्क भी “ऋषिर्दर्शनात् ।” २।११ ऋषि देखने से
होता है, यही कहता है । उस ने किसी पुरातन ब्राह्मण की
भी यही सम्मति दी है ।

पतञ्जलि ने भी यही लिखा है—“न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते ।”
महा० ४।३।१०।१ अर्थात् छन्द=वेद और शाखाओं के मन्त्र

बनाये नहीं जाते। पारिनी ने भी “द्रष्टुं साम” ४१२७ से यही सिद्धान्त प्रकट किया है। इन सब प्रमाणों से यही ज्ञात होता है कि कात्यायन कालीन लेखक और उन से बहुत पूर्व के प्रवचन कर्ता मन्त्रों के आर्थक-रचयिता नहीं मानते थे। वे ऋषियों को द्रष्टा मानते थे। साम्प्रतिक लेखक जो इच्छा हो मानें पर उन्हें यह अधिकार नहीं कि वे अपने विचारों को पुराने लोगों के नाम पढ़ें।

(३) ‘वैदिक कवियों की प्रथान कुलों के सम्बन्ध में कात्यायन का लेख कुछ सत्य ऐतिहासिक पर आश्रित है।’ पाश्चात्य लेखक २-७ मण्डलों को कुल-पराडल कहते हैं, कारण कि वे ‘चिरकाल तक पृथक्रूपेण कुलों में ही परम्परा से चले आये’ (मैकडानल, हिस्टरी ऑफ संस्कृत लिट्रेचर पृ० ४९)। इन दूसरों के लम्बन्ध में कात्यायन के पास पूर्ण ऐतिहासिक था। पूर्व इस बात के अनेक प्रमाण दिये गये हैं। मैकडानल का कहना कि ये मण्डल चिरकाल तक विभिन्न कुलों में चले आये सर्वथा अशुद्ध है। वामदेव और विश्वामित्र समकालीन थे। हम पूर्व दिखा चुके हैं कि वामदेव ने विश्वामित्र द्रष्टु ऋचाओं का प्रचार किया, अतः उस समय में भी एक कुल वाला दूसरों के मन्त्रों को फैलाता था।

पाश्चात्य लेखक स्वयं ही इस भ्रम में नहीं पड़े प्रत्युत उन्होंने कई दूसरों को भी इस भ्रान्ति में डाल दिया है कि २-७ मण्डल बहुत पुराने काल के हैं और प्रथम तथा दशम मण्डल

उन की अपेक्षा बहुत नवीन हैं। जब हम सर्वानुक्रमणी की सादी प्राग्याग्निक स्तिर्द कर चुके तो अब उस से निम्नपरिणाम निःसङ्कोच निकालते हैं।

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| (१) कुशिक | अङ्गिरस | ब्रह्मा । |
| (२) गाथी | रहगगा | वसिष्ठ । |
| (३) विश्वामित्र | गोतम | शक्ति । |
| (४) मधुच्छन्दा | वामदेव | पराशर । |
| (५) जेता | बृहदुकथ्य | व्यास । |

भिन्न २ कुलों के यह पांच २ नाम वंश-क्रम से लिखे गये हैं। इनके कलिपय सभासद तीसरे, चौथे, और सातवें मण्डल के द्रष्टा हुए हैं। इन्हीं के पुत्र, पौत्र प्रपौत्र वा पिता पितामहा आदि प्रथम और दशम मण्डल के सूक्तों के भी द्रष्टा हैं। तब कौन कह सकता है कि २-७ मण्डल १, १० मण्डलों से बहुत पहले के हैं। प्रतीत होता है ऐसे ही प्रमाणों से भयभीत होकर पाश्चायाँ ने अनेकों निस्सार कल्पनाएं की हैं। यदि ऋषिवंशों का शुद्ध इतिहास कात्यायनादि को विदित न होता, तो वह पिता, पुत्र के क्रम से उन का उल्लेख कभी न करता। ब्लूमफील्ड के वचन “कुछ २ सख ऐतिह पर आश्रित है।” बता रहे हैं कि उसे भी इतिहास का सर्वथा अस्वीकार बड़ा कठिन प्रतीत हो रहा था। यदि वह अधिक विचार करता तो सम्भवतः वह भी सत्य परिणाम पर पहुंच जाता।

(४) 'कात्यायन के अधिक निश्चित विवरण' का हमें अभिप्राय ही विदित नहीं होता। क्या उस के कुछ कम निश्चित विवरण भी हैं? उस की दृष्टि में तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस ने सन्देह प्रकट नहीं किया, और आप की दृष्टि में हैं तो उस पर कोई दोष नहीं। वस्तुतः यह आप का ही निर्मूलन्ध्रम है।

(५) 'अनुक्रमणीकार जानवृभ कर एक ही ऋचा के दो वा अधिक रचयिता बताता है।' हम दिखा चुके हैं कि अनुक्रमणी का आधार ब्राह्मणग्रन्थ है और ब्राह्मणों में ऐतिहासी अदृष्ट शब्दनाच जी आ रही है। कात्यायन तो प्राचीन ऐतिहास का संग्रह करने वाला है। यद्यपि आज सैकड़ों ब्राह्मणों में से कुछ ही मिलते हैं तो भी यत्न करने पर अनुक्रमणी के मूल उन में दूरें जा सकते हैं। अतएव अधिक से अधिक ब्राह्मणों के प्रवचनकर्ताओं पर ब्लूमफील्ड सन्देह कर सकता था। ऋ० ११८३ का ऋषि गोतम राहुगण है। यही ऋचा ११८८८ है। वहाँ ऋषि उशन काव्य है। इस ब्लूमफील्ड कल्पित पुनरुक्ति की हम सूक्ष्म परीक्षा करनी चाहते हैं।

(क) यदि किसी आरम्भक काल में मन्त्र एक ही था, तो न्यूनात्मन् यह सब स्वीकार करेंगे कि कात्यायन, नहीं, नहीं शाकल्य के काल से भी बहुत पूर्व यह ऋग्वेद के दोनों मण्डलों में मिलता था। अब यदि उपर्युक्त ११८१ और ११८८ के ऋषियों की कल्पना कात्यायन की है तो ब्लूमफील्ड आदि लेखकों के अनुसार वेद में ऋषियों के नाम आते हैं। वे ऋषि

व्यक्तिविशेष थे । हमारे समान वे इन शब्दों को यौगिक नहीं मानते । अस्तु, वेद का स्वाध्याय करने वाले जानते हैं कि एक ही ऋषि के सूक्त यदि वह किसी मण्डल के बहुत सूक्तों का द्रष्टा है, प्रायः साथ २ आते हैं । ऋग्वेद ६।८७, ८८ दोनों सूक्तों का द्रष्टा (ब्लूमफील्ड के अनुसार कर्ता) उशन काव्य है । इस में कोई सन्देह नहीं कर सकता । एक मन्त्र देखो—

ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानाभूभुधीरं उशना काव्येन
६।८७।३ हमारे अनुसार इन मन्त्रों का ऋषि वन कर किसी व्यक्ति ने अपना नाम उशन काव्य रखा, और पाश्चात्यों के अनुसार मन्त्र-निर्माता ने अपना नाम मन्त्र में दिया । कुछ भी हो यही उशन काव्य ६।८७, ८८, ८९ का ऋषि है । यदि वही सूक्त-निर्माता था तो उम ने यह मन्त्र स्वयं बनाया, या किसी अन्य के बनाये हुए को अपने काव्य में मिला लिया । दोनों अवस्थाओं में वह इतना प्राचीन है कि यदि उस ने यह मन्त्र स्वयं न बनाया था तो उसे इस का निर्माता ज्ञात था । यदि वह जानता था तो उस की कुल परम्परा द्वारा यह बात अन्य भी जान सकते थे । ऐसी अवस्था में इतिहास की माला टूट न सकती थी ।

पूर्वोक्त युक्तियां ही गोतम के सम्बन्ध में जो ऋ० १।४१ का ऋषि है, घट सकती हैं । उस का नाम भी (पाश्चात्यविचारानुसार) ६।८४।१ में आया है । यही गोतम ऋ० १।७४-८।३ का ऋषि है ।

(ख) यदि गोतम ने उशन से मन्त्र लिया वा उशन ने गोतम से तो भी इतिहास सुरक्षित रह सकता था और एक स्थान में जो कि पुनरुक्त होता मूल ऋषि का नाम आ जाता ।

(ग) यदि कहो मन्त्र इन दोनों से भी पुराना था, और वे मन्त्र-निर्माता का नाम भूल चुके थे, These old blessings presumably contain prehistoric stock which passed on from ancient times to the Rishis of the RV. (ब्लूमफील्ड, रैपीटीशन्स, पृ० १७) तो इस में मूलहीन कल्पना के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि आप के समान यदि कोई मन्त्रों में मन्त्र-निर्माताओं का नाम मान ले तो उसे विवश मानना पड़ेगा कि प्रायः सारा ऋग्वेद समकालीन है, तथाच मन्त्र-रचयिताओं से बहुत पहले मन्त्र न थे । छठे मण्डल का प्रधान ऋषि बृहस्पतिपुत्र भरद्वाज है । आप लोगों के अनुसार वह स्वयं अपना नाम मन्त्रों में लेता है, अथवा उस के सम्बन्धी ही उस का नाम लेते हैं, जैसा मैकडानल ने ओलडनवर्ग की साक्षी पर लिखा है “Judging by the tone of the references to भरद्वाज he can hardly be deemed to have been a contemporary of any of the hymns (वैदिक इराडैक्स पृ० ६७) ।

“भरद्वाजे नृवत इन्द्र” ६।१७।१५। आप लोगों के अनुसार इसी भरद्वाज को कुत्स आङ्गिरस ऋषि स्मरण करता है । “याभिर्विंशं प्र भारद्वाजमावतम् ।” १।१२।१३। यही कुत्स

अपना वर्णन भी इसी सूक्त में करता है “याभिः कुत्सं श्रुतर्य ।” १।१२।६। इसी का वर्णन भरद्वाज करता है ‘प्रतत्ते अद्या करणं-कृतं भूत्कुत्सं ।’ ६।१८।३। ऐसे अन्य वीसियों प्रमाण हैं जो वेद-काल-निरूपण प्रकरण में दिये जायेंगे ।

इतने लेख से ज्ञात हो जाता है कि ब्लूमफील्ड आदि लेखक जिन बातों को अभी सिद्ध करना था, उन्हीं को साधन मान कर अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं । सबसे यह है कि ऐसे ही तर्कों का विचार करके उनका अपना हृदय हिल जाता होगा, अतः उन्होंने ऊपर से बड़ा युक्तियुक्त पर वस्तुतः सारहीन मार्ग पकड़ा ।

(६) यह छठी बात एक रूप से पांचवीं के प्रमाण में थी । इस का खण्डन उसी में आ गया है । अधिक लिखने से क्या ?

(७) ‘वेद-मन्त्रों में मन्त्र-रचयिताओं के नाम हैं’ इस का खण्डन ‘वेदार्थ-प्रकार’ प्रकरण में आगे करेंगे ।

(८) ‘जहां वे (नाम) पुनरुत्तर वाक्यों में आते हैं वहां मन्त्रों के काल-निरूपण करने में सहायता देते हैं । जैसे—

एवा न स्पृधः समजा समत्स्वन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवी ।

,, ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम् ।

विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भारद्वाजा उत त्रिन्द्र नूनम् ॥

“ ” ” ” विश्वासित्रा ” ” ” ॥

यह मन्त्र भी सारे तो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक पद

को छोड़ के पिछले अर्धमाह में मिलते हैं। पूर्व प्रदर्शित सान्तियों की विवरणता में इन से भी कोई सन्तोषजनक कल्पना नहीं की जा सकती। जो ब्लूमफील्ड ने सिद्ध किया है कि दशम मण्डल की ऋचा पीछे की है, यह उस का पूर्व-संस्कार मात्र है जो मिथ्या भाषा-विज्ञान द्वारा उस के मन पर पड़ चुका है।

ऋग्वेद में प्राचीन और नवीन ऋषियों का वर्गन।

जे, मूर ने १८६१ ई० में “ओरिजिनल संस्कृत टैक्सट्स” भाग तृतीय में अनेक ऋचाएं देकर यह दर्शाने का यत्न किया था कि ऋग्वेद में नये और पुनर्जने ऋषियों का वर्गन मिलता है। इस से यह परिणाम निकाला गया था कि मन्त्र-निर्माता ऋषिलोग स्वयं ही थे, और ऐसी ऋचाओं में वे अपने पूर्वजों का स्मरण करते थे। यह स्मरण कई स्थलों में नाम लेकर किया गया है और कई स्थलों में सामन्यरूप से।

इस का उत्तर संवत् १९३३ वि० में दयानन्द सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में एक मन्त्र पर वियाद चला कर स्थालीपुलाकन्याय से दिया था। वह मन्त्र

अभिः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिङ्गो नूतनैरुत ऋ० ११२

सुप्रसिद्ध है। जे मूर ने इस मन्त्र का प्रमाण देते हुए सायणीय-भाष्य का कुछ पाठ उद्धृत किया है। सायणानुसार पुरातन ऋषि भृगु, अङ्गिरा आदि हैं और नूतन मधुच्छन्दा आदि। वस्तुतः सायण-प्रदर्शित यही भ्रान्ति थी कि जिस में

न केवल सायण ही उलझ गया प्रत्युत जिससे सारा पाश्चात्य वेदाध्यायन ही पलट गया । राथ आदि स्कालर कहते रहे कि हम सायण से विभिन्न और अधिक सत्यार्थ करते हैं, पर इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं कि हरिवर्षीय लेखों पर संस्कार सायण ही का है ।

अस्तु, प्रकृत विषय यह है कि 'पूर्व' और 'नूतन' पदों का क्या अर्थ है ? यह पद निस्सन्देह सापेक्ष हैं । सापेक्ष और निरपेक्ष का ज्ञान वेद में भी पाया जाता है—

ये अर्वाच्चस्ताँ उ पराव आहुर्ये पराच्चस्ताँ उ
अर्वाच्च आहुः । ऋ० १।६३।८ 'जो निम्नगति पदार्थ है उन्हीं को परे पहुचे हुए कहते हैं । जो परे गये पदार्थ हैं उन्हें ही नीचे जाने वाले कहते हैं।' भावार्थ यह है कि एक ही पदार्थ स्थानभेद से दो नामों से पुकारा जाता है । इसी प्रकार किसी एक की अपेक्षा दूसरा पूर्व है और किसी अन्य की अपेक्षा वही नूतन है । जहाँ 'पूर्व' शब्द काल की अपेक्षा को जताता है वहाँ इस के साथ ही पूर्णता की सीमा को भी स्फाशित करता है । इस का संक्षिप्त व्याख्यान मेरी बनाई 'नूतनव्याख्या' प० १७ पर देखो । वहाँ मनु के प्रमाण से बताया गया है कि बालक अङ्गिरा भी अपने बड़ों का पिता, उन से बड़ा, स्थविर और उन की अपेक्षा पूर्व था । ऋग्वेद में ही और प्रमाण देखो—
न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीर्यै नूतनः कश्चनाप ॥

‘हे श्रेष्ठ-धन-युक्त विद्वन् वा राजन् ! तेरे पराक्रम को न पहले, न पिछले न नया कोई भी व्याप होता है’ (हैथरीचड, पहुंचा, ग्रिफिथ) । ग्रिफिथ ने “अपरासः” का अर्थ भूतकाल में ही रखा है, अर्थात् पूर्वों से कुछ पिछले । यह अर्थ युक्त नहीं । इस मन्त्र में ‘पूर्व’ की तुलना में ‘अपर’ पद आया है । अतः अर्थ है इस का ‘पिछले’ । ऐसी अवस्था में ‘आप’ पद व्यत्यय से वर्तमानकाल का हो जायगा । मन्त्र का अभिप्राय यह है कि राजा ऐसा होना चाहिये जिसे राजनीति विशारद=पूर्व, राजनीति पढ़ने वाले=नूतन, तथा पढ़ना आरम्भ करने वाले=अपर, व्याप न कर सकें । इसी प्रकार—

**प्र पूर्वजे पितरा नव्यसीभिर्गीर्भिः कृणुध्वं सदने
ऋतस्य । ऋ० ७।५३।२**

‘(हे विद्वानों!) नई से नई स्तुतियों से सत्य के स्थान में पूर्वज पितरों को करो ।’ यहां भी पूर्व का अर्थ विद्यापूर्ण=अधीत ही है । यदि इस शब्द के अर्थ का सम्बन्ध भूतकालस्थ जनों से होता तो ‘कृणुध्वम्’ ‘करो’ क्रिया जो वर्तमान में है, न आती । इस लिये वेद में ‘पूर्व’ ‘ऋषि’ आदि पदों के एकत्र आने से यह नहीं समझा जा सकता कि इन स्थूलों में किन्हीं भूतकालस्थ व्यक्तियों का वर्णन है । एक और प्रमाण देकर हम इस विषय की समाप्ति करेंगे ।

**दद्यङ्ग् ह मे जनुषं पूर्वोऽग्निराः प्रियमेधः करवो अत्रिमनुर्विदुत्ते
मे पूर्वो मनुर्विदुः । ऋ० १।१३।६**

“मेरे जन्म को दध्यङ्, पूर्व अङ्गिरा, प्रियमेध, कणव, अति
और मनु जानते हैं, वे मेरे पूर्व के, (यह) मनु (है) जानते हैं।”
इस ने दध्यङ् आदि पदों का अर्थ नहीं किया। हमारा अनुवाद
तो इन्हें यौगिक मान कर होगा, परन्तु जो पूर्वपक्षी है वह
इन्हें पुरुषविशेष मानता है। इस मन्त्र में आये ‘विदुः’ क्रियापद
का अर्थ मूर ने “नो=जानते हैं” किया है। ग्रिफिथ ने
‘न्यू’ अर्थात् जानते थे’ किया है। ग्रिफिथ को सत्यार्थ में
आपत्ति प्रतीत हुई, अतः उस ने विना प्रमाण अर्थ बदला है।
ग्रिफिथादि पाश्चात्य लेखक व्यत्यय तो मानते ही नहीं, इस
लिये उसे ऐसा अर्थ करने का अधिकार किस ने दिया?
इस का अर्थ वर्तमान काल गेंही घट सकता है। ऐसा होने पर
यह कहना कि ‘पूर्व अङ्गिरा आदि ऋषि मेरे जन्म को जानते
हैं,’ सिद्ध कर रहा है कि वेद की परिभाषा में ये शब्द यौगिक
हैं और पूर्व शब्द का ‘ज्ञानपूर्ण’ भी अर्थ है। इस प्रकार वेद
में इन शब्दों से यह कदापि निश्चय नहीं हो सकता कि मन्त्रों
में काल की दृष्टि से ही इन का प्रयोग है।

मन्त्र-रचना में वैदिक ऋषियों की साक्षी।

जेमूर ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक में लिखा है—

“ऋग्वेद-वचन जिन में ऋषि अपने आप को
मन्त्र-निर्माता बताते हैं।”

“इस विभाग में, प्रथमतः, मैं उन वचनों को उद्धृत करना

थाहता हूं, जिन में ऋषि स्पृष्टया अपने को मन्त्र-रचियता कहते हैं। वे कोई ऐसा विचार प्रकट नहीं करते, जिस से विदित हो कि उन्हें किसी अलौकिक (सूपरनैचूरल) कारण से सहायता या सफारि हुई। तब, मैं कुछ और वचन उपस्थित करता………जिन से पाठक को विचार होगा कि ऋषि मन्त्रों को अपने ही पनों की उपज समझते थे।

“मैं उन उद्धरणों को, जिन में ऋषि स्पृष्टया रचियता होने का कथन करते हैं, उस विशेष ‘क्रिया’ के अनुसार क्रम दूंगा, जिस के द्वारा कि यह भाव प्रकट किया गया है। क्रियाएं ये हैं (१) ‘कृ ’=वनाना, (२) ‘तत् ’=तरतीव देना, (३) जन्=जन्म देना या उत्पन्न करना।”

मूर के उत्तर-लेखक जो पाश्चाय लेखकों का अनुसरण करते हैं, इस विषय पर निरन्तर इन्हीं प्रमाणों को उद्धृत करते आये हैं। मूर ने स्वयं बहुत मन्त्र दिये हैं। क्योंकि सब मन्त्रों में मूल बात एक सी ही है, अतएव हम कठिय प्रमाण मन्त्र देकर ही इन मन्त्रों को विषद करने की चेष्टा करेंगे।

पूर्वोक्त तीन धातुओं के साथ मूर ने ‘स्तोम’, ‘ब्रह्म’, ‘वाह’, ‘मन्त्रा,’ ‘मन्त्र,’ और ‘वाक्’ आदि शब्द दिये हैं। प्रथम प्रमाण में ‘स्तोम’ शब्द आया है।

उस मन्त्र में आये स्तोम पद का क्या अर्थ है? मूर ने ‘हिम’=सूक्त अर्थ किया है। ग्रिफिथ ‘सौङ्ग ऑफ़ प्रेज़’=स्तुति-

गीत अर्थ करता है। मैकडानल ने 'वैदिक इरडैक्स' में ग्रिफिथ बाला अर्थ प्रामाणिक माना है। वस्तुतः "स्तौति येन स स्तोमः।" जिस से स्तुति करे वही स्तोम, यही इस पद का मूल अर्थ है। इसी मूलार्थ में प्रशंसितव्यवहार, स्तुति-कर्म आदि अर्थ भी आ जाते हैं। जब एक पाश्चात्य लेखक वेद में—

ऋषि=मेधातिथिं कारण, देवता=ऋभवः।

अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया। अकारि रत्नधातमः ॥

ऋ० १२०१

ऐसा मन्त्र पढ़ता है तो उस के हृदय में यह बात पहले से जमी होती है कि वैदिक-कवि बहुत पुरातन अर्द्धसभ्य काल में जो स्व-निर्मित गीत गाया करते थे, उन्हीं का संग्रह-मात्र यह ऋग्वेद है। इस स्थिति में ऐसे वेद-वचनों का वह यही अर्थ करता है कि वैदिक-ऋषि स्वयं अपने को इन गीतों का कर्ता बताते हैं। हमारा संस्कार उन से विपरीत है। हम आरम्भ से ही मानते चले आये हैं कि मनुष्य के आत्मा में 'अहंभाव' का ही केवल स्वाभाविक ज्ञान है। प्रकृति वा उसका कार्य दृश्य जगत् ज्ञान-शून्य है। फिर जो संसार में ज्ञान दिखाई देता है, तो उस का निमित्त चाहे पुरुष ही हो, पर मूल चेतन ज्ञानमय परमात्मा के बिना अन्य कोई नहीं। जब ऐसा भाव मन में आता है तो इन वाक्यों का अर्थ ही और हो जाता है। वह अर्थ कलिपत नहीं। तदनुसार इस मन्त्र का भाव होगा—'दिव्य

शुण्युक्त जन्म के लिये यह स्तुति-व्यवहार मेधावियों से (किया गया, मूर) किया जाता है' इत्यादि। मूर ने अर्थ किया है "वह धन-प्रदाता 'हिम'=स्तोम देवी जाति के लिये भुजियों द्वारा मुख से बनाया गया है।" ग्रिफिथ अनुवाद करता है— "देवी कुल के लिये यह स्तुति-गीत जो अस्यन्त धन देता है, कवियों से ओष्ठों द्वारा बनाया गया था।"

सत्यार्थ का अन्वेषण।

हम ने दोनों संस्कारों की उपज मन्त्रार्थरूप में पूर्व धर दी है। अब विचार है अर्थ की सत्यता पर। इस समय सब संस्कार परे छोड़ दिये जायेंगे और पूर्ण-विचार-दृष्टि से सत्य तत्त्व की गवेषणा होगी। सर्वानुक्रमणी के अनुसार जिस की सात्त्वी पूर्व-प्रमाणित हो चुकी है, इस मन्त्र का ऋषि मेधातिथि कारण है। देवता है इस का "ऋभवः"। पाश्चात्य पत्तानुसार मेधातिथि कहता है कि 'यह स्तोम=स्तुति-गीत=मन्त्र कवियों से बनाया गया।' वे कवि=गायक कौन हैं? पाश्चात्य लेखकों के अनुसार वे ऋभु हैं। ग्रिफिथ ने विलसन की सम्पति उद्धृत करते हुए माना है कि 'शुभ कर्मों द्वारा ये देवता हो गये।' हम पूर्व-वर पुनः पूछते हैं कि क्या तीन ऋभु भ्राता एक ही मन्त्र रचने लगे थे, और वही मन्त्र फिर मेधातिथि कारण के नाम से प्रसिद्ध हुआ? जब उन के अनुसार 'अर्यं' सर्वनाम का प्रयोग मेधातिथि का है तो ऋभु इस के=रचयिता न रहे।

और यदि ऋभु रचयिता हैं, जो कि असम्भव है तो ‘अकारि’ क्रिया का प्रयोग भूतकाल वाला होने से यह सख नहीं। पुनश्च मेधातिथि भी इनका बनाने वाला नहीं हो सकता क्योंकि “विप्रेभिः...अकारि” पद पड़े हुए हैं। इतनी परीक्षा के पश्चात् पाठक समझ जायेंगे कि पाश्चाय अर्थ भद्रा शब्दार्थ होते हुए भी सर्वथा साज्य है। यदि कोई कहे कि “अयं स्तोमः” इस सारे मूर्क को जताता है तो उसे कृपया सारा मूर्क पढ़ जाना चाहिये जिस में पदे २ पूर्वोक्त आपत्तियां आती हैं। और स्तोम का मूर्क अर्थ हेरफेर से ही होगा।

(वक्त) “अग्नये ब्रह्म ऋभुमस्ततन्तु” । ऋ० १०।८०।७
“The Ribhus fabricated Prayer for Agni” (ग्रिफिथ)
‘अर्थात् ऋभुओं ने अग्नि के लिये प्रार्थना विस्तृत की।’ इस मन्त्र में तो स्पष्ट लिखा है कि ऋभुओं ने प्रार्थनाएँ=ब्रह्म=मन्त्र बनाये।

(उत्तर) जो अशुद्धि पहले मन्त्रार्थ में की जा रही है वही यहां पर है, अतः तुम अर्थ नहीं समझते; ऋभु का अर्थ है मेधावी। और अग्नि परमात्मा का भी नाम है। इस प्रकार मन्त्रार्थ है—‘परमात्मा के लिये मेधावी जन ब्रह्म=वेद का विस्तार करते हैं।’ इतने लेख से समझ में आ जाता है कि हमारा संस्कार चाहे कैसा हो, पर युक्ति-युक्त अर्थ भी हमारा ही है। इस और अन्य ऐसे मन्त्रों में कहीं पर भी स्तोम (=‘सूक्त’, मूर) अथवा वेदमन्त्रों के ऋषियों

द्वारा रखे जाने की कथा नहीं है। हाँ, स्तोमों-स्तुतियों को बे क्या, हम भी करते हैं।

‘ब्रह्म’ पद।

मूर ने ‘ब्रह्म’ पद का सर्वत्र ‘प्रार्थना’ अर्थ किया है। यही अर्थ ग्रिफिथ भी स्वीकार करता है। कई स्थलों पर वह इस का ‘हिम’ सूक्त अर्थ भी करता है। इस अर्थ के करने में इन लोगों के पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हाँ, निज कल्पना भले ही करें। इस के विपरीत ब्रह्म शब्द के यह अर्थ असन्त प्रसिद्ध है। (१) वेद (२) ईश्वर (३) धन (४) उदक (५) अन्न (६) वाणी इसादि। इस प्रकरण में जो मन्त्र मूर ने प्रमाण-रूपेण उद्घृत किये हैं उन्हीं पर यदि ऋषि दयानन्द का भाष्य देखा जाय तो प्रकरण ही दूसरा हो जाता है। बाद अन्त में ‘वेदार्थ-प्रकार’ पर होगा। यदि पाश्चात्य प्रकार सस्य है, तो उन के सिद्धान्त सस्य, अन्यथा मिथ्या होंगे। यहीं विचार कर हम एक २ शब्द पर संत्तिस लेख को यही बन्द करते हैं। इस पर विस्तृत विचार आगे करेंगे।

ऋग्वेद शब्दार्थसम्बन्धरूप से किसी मनुष्य की कृति नहीं ।

जब ऋग्वेद कोई शास्त्र-विशेष न रहा, जब इस के विषयता ऋषि लोग सिद्ध न हो सके, जब ऋग्वेद के सम्बन्ध में आज तक वौद्धों, जैनों और आर्यों के पास कोई इतिहास न रहा कि यह किसी मनुष्य की कृति है, जब ऋग्वेद पाश्चाय लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक काल से भी पूर्व का ग्रन्थ हो गया तो प्रश्न होता है कि ऋग्वेद में ही इस के बनने आदि के विषय में कुछ लिखा है वा नहीं ? मूर ने निस्सन्देह कई मन्त्र देकर यह भी दर्शाया है कि अनेक मन्त्रों में ऋषियों को देवीसत्ता से सम्बन्ध रखने वाला कहा गया है । हम मूर के इन अर्थों को भी नहीं मानते, इसलिये किसी और ही रूप से हम इस विचार को उठाना चाहते हैं । ऋग्वेद में एक मन्त्र है—

अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कदीवाँ ऋषिरस्मि विषः ।

अहं कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽहं कविरुशना पश्यता मा ॥ ४२२६॥

ग्रिफिथ का अर्थ है—“मैं पहले ‘मनु’ था, मैं ‘सूर्य’ था, मैं हूं ‘कदीवान्’ ऋषि । पवित्र गायक, आर्जुनि-पुत्र ‘कुत्स’ को वश में (मास्टर) करता हूं । मैं कवि ‘उशन’ हूं । मुझे देखो ।” इस और अगली दो ऋचाओं के सम्बन्ध में ग्रिफिथ ने यह टिप्पणी दी है “इन्द्र पहली तीन ऋचाओं

का कहने वाला है, यद्यपि यह अस्पष्ट है कि “मैं ‘कहीवान्’ और ‘उशन्’ हूं, कहने से उस का क्या अभिप्राय है। कदाचित् वह अपने को सारी सत्ता के साथ एक करना चाहता है।”

पाठक देख लीजिये, भद्रे शाब्दिक अनुवाद का बेढ़ापन अनुवादक को स्वयं ही खटक गया है। उस के अर्थानुसार पूर्वोक्त ऋचा में पांच व्यक्ति-नाम क्रमशः आये हैं (१) मनु (२) सूर्य (३) कहीवान् (४) छुत्स (५) उशन्। इन में से पहले दो नामों के साथ भूतकालस्थ क्रिया का सम्बन्ध है और पिछले तीन वर्तमान काल के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इन मन्त्रों पर सर्वानुक्रमणी का वचन भी देख लीजिये। “अहं मनुः सप्ताद्याभिस्तस्मभि रिन्द्रमिवात्मान मृषि स्तुष्टा वेन्द्रो वात्मानं………।” इसी वचन को देकर सायन कहता है—“आत्मानभिन्द्ररूपेण वामदेवः स्तुतवान्। यद्वा इन्द्र एवात्मानं स्तुतवान्। अतो वामदेववाक्यपक्षे वामदेव ऋषिरिन्द्रो देवता। इन्द्रवाक्यपक्षे त्विन्द्र ऋषिः परमात्मा देवता।” अर्थात् ‘वामदेव’ ने इन्द्ररूप से अपनी स्तुति की। अथवा इन्द्र ने ही अपनी स्तुति की। अतः वामदेव के पक्ष में वामदेव ऋषि और इन्द्र देवता है। इन्द्र के पक्ष में इन्द्र ऋषि और परमात्मा देवता है। ग्रिफिथ ने भी सायण का ही भाव नकल किया है “दि डियरी आँफ दि फर्स्ट थ्री स्टैरज़ास इज़ सैड दु बी आईदर इन्द्र ओर परमात्मा।”

हम ने अनुक्रमणी को वारम्बार पढ़ा है, पर हमें यह नहीं मिला कि अनुक्रमणीवचन से सायण ने दो पक्षों में दो देवता कैसे निकाले । वृहदेवता में भी कोई विशेष नहीं कहा--

“अहमित्यात्मसंस्तावस्तृचे स्तुतिरिवास्य हि ॥ ४।१३५॥

यहां ‘अस्य’ सर्वनाम इन्द्र का घोतक है । भाव यही है कि इन्द्र के समान अपनी स्तुति में यह वाक्य है । यदि कोई सायण का भक्त “इन्द्रमित्यात्मान मृषि सुष्टुवेन्द्रो आत्मानम् ।” का यह अर्थ करे कि इन्द्र ने आत्मा=परमात्मा की स्तुति की तो हम कहेंगे कि यहां दो बार ‘आत्मन्’ शब्द आया है । प्रकरण को विचारने से सत्यार्थ दोनों स्थलों पर एक ही प्रतीत होता है । यदि सायणानुसार इन्द्र ने परमात्मा की स्तुति की तो वामदेव ने भी उसी की स्तुति की । सायण का यह लिखना ही निरर्थक है कि ‘इन्द्ररूप’ से वामदेव ने आत्मस्तुति की । अन्यत “ऐन्द्रोलब आत्मानं तुष्टाव १०।११।६।” और “पौलोमी शन्यात्मानं तुष्टाव ।” १०।५६ दोनों स्थलों पर ‘आत्मानम्’ का अर्थ सायण ने भी ‘स्वात्मानम्’ ही किया है ।

सायन के भ्रम का कारण ।

अवैदिक-देवता-वाद का अनुसरण करते हुए सायण के लिए यह कठिन था कि वह ‘इन्द्र’ शब्द का यहां अर्थ ही ईश्वर लेता । वह तो इन्द्र को एक देवता-विशेष माने चैढ़ा था,

अतः उसे पूर्व-प्रदर्शित भि अकल्पना करनी पड़ी। सर्वानुक्रमणी के वाक्य का सस अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार आदि में इसी वा अगले दो मन्त्रों द्वारा इन्द्र=परमात्मा ने अपनी स्तुति की अर्थात् अपने यथार्थ गुण जताये, वैसे ही वामदेव ऋषि भी इन मन्त्रों के अर्थों को देख कर अपने आत्मा के गुण, कर्म, स्वभावों का जानने वाला हुआ, और इस मन्त्र द्वारा उस ने इन्द्र अर्थात् परमात्मा के ही दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया। देवता इन मन्त्रों का चाहे इन्द्र कह लो, चाहे आत्मस्तुति, बात एक ही है।

अब हम ग्रिफिंथ के अर्थ की परीक्षा करेंगे। वह कहता है ‘इन्द्र पहली तीन ऋचाओं का कहने वाला है।’ अर्थात् कुछ भी हो, उस के मतानुसार इन्द्र देहवारी मनुष्य है। वह इन्द्र वामदेव से निश्चय ही पूर्वकाल का होगा। उसीने यह मन्त्र कहा। अब यदि वह इन्द्र अनृतवादी नहीं, तो—

(१) ‘मैं पुराकाल में मनु था, मैं सूर्य था।’ इस कथन का क्या अर्थ है? ‘अफोरटाइम’ =‘पुराकाल में मैं मनु था।’ यही बताता है कि इन्द्र इस जन्म की बात नहीं करता। ग्रिफिथ ने ‘अभवम्’ क्रिया का अर्थ ‘पुराकाल में था’ किया है। तो क्या इन्द्र किसी पहले जन्म का वर्णन कर रहा है? ग्रिफिथादि पाश्चात्य लेखक वेद के काल में अभी सिद्धान्तरूप से पुनर्जन्म का कहीं चिन्हचक्र भी नहीं पाते। तो फिर इन्द्र के कथन का

कुछ अर्थ भी है या नहीं ? क्या एक ही जन्म में वह अपने नाम बदल रहा था ?

ग्रिफिथ यहां चूप है । वह क्या, अन्य पाश्चात्य लेखक भी यहां मौन ही साधेंगे । इसे पुराने कवियों की मिथ्या-कल्पना ही कहेंगे ।

(२) ‘मैं कक्षीयान्, कुत्स, उशन हूँ ।’ इस का पुनः क्या प्रयोजन है ? ग्रिफिथ ने यहां स्पष्ट कह दिया है कि उसे इस का भाव पता नहीं लगा । उस ने सम्भावना की है कि कदाचित् इन्द्र सब सत्ता के साथ अपनी एकता बताना चाहता है । ऐसी सम्भावना पर फिर विवाद होगा कि क्या वैदिक काल में यह विचार कहीं था भी या नहीं ? क्या यही एकता बताते २ ग्रिफिथानुसार वह तीसरे मन्त्र में कहेगा कि ‘आई डिमॉलिशड शम्बरस् फोर्दस ।’ मैं ने शम्बर के दुर्ग नष्ट किये । कहां ‘सर्वसत्ता से एकता’ प्रदर्शन और कहां यह नाश ?

इन मन्त्रों के अनुवाद में ग्रिफिथ की भारी भ्रांति ।

प्रथम मन्त्र के प्रथम पाद में ‘अभवम्’ क्रिया है और द्वितीय मन्त्र के प्रथमपाद में ‘अददाम्’ क्रिया है । दोनों सङ्कलकार में हैं । पर व्यत्यय आदियों को न मानने वाले, कई भोले जनों के विचार में अक्षरानुवादक पाश्चात्य लेखक की कृति देखो ! ‘अभवम्’ का अर्थ करता है ‘पुराकाल में था’ और ‘अददाम्’ का अर्थ करता है “‘मैंने ढी है ।’” एक ही लकार में साथ २

दो क्रियाएं, और इतना भिन्न अर्थ ? यही है इस अर्थ की निष्पक्षता ।

यही नहीं, पाश्चात्य लेखकों के लिये तो और भी बड़ी कठिनाई है । वे शम्वर को देहधारी व्यक्ति मानते हैं । दिवोदास के साथ उस के युद्धों का वर्णन वे ऋग्वेद में पढ़ते हैं । यह घटनाएं उन के काल्पनिक काल-क्रमानुसार बहुत पहले की हैं, जब कि कृत्स और कक्षीवान् आदि ऋषि उत्पन्न भी न हुए थे, फिर प्रथा, मन्त्र में इतनी पुरानी घटनाओं वाले इन्द्र के साथ उनका उल्लेख कैसे ? यदि वे कह दें कि मन्त्र वामदेव ने ही बनाये थे तो वे उस का शम्वर के साथ युद्ध कैसे सिद्ध करेंगे । वे समझते होंगे कि जैसे बुद्धि-शून्य जन आज इन का अनुकरण करके इन की मिथ्या-कल्पनाओं को मान रहे हैं । वैसे ही वामदेव के काल के प्रोग वामदेव आदि की गप्पे मान लेते होंगे । अन्यथा पाश्चात्य लेखक ऐसी सारहीन बातें क्यों लिखते ?

सायण का अर्थ ।

सायण ने अर्थारम्भ में लिखा है “इदमादिमन्त्रब्रयेण गर्भे वसन्वामदेव उत्पन्नतत्त्वज्ञानः सन् सार्वात्म्यं स्वानुभवं मन्वादिरूपेण प्रदर्शयन्नाह । अहं वामदेव इन्द्रो वा मनुरभवम् । सर्वस्य मन्ता प्रजापतिरास्मि । अहमेव सूर्यश्च सर्वस्य प्रेरकः सविता चास्मि ।...कक्षीवान् दीर्घतमसः पुत्र एतत्संज्ञक ऋषिरप्यहमेवास्मि ।” यहां पर सायण ने निम्नलिखित भूलें की हैं ।

(१) मनु और सविता शब्दों को यौगिक बना कर तो कुछ भला अर्थ किया था, पर आगे चल कर कक्षीवान् आदि पदों को ऋषियों का नाम बना कर उसने पूर्वपर विरुद्ध अर्थ किया है। पहले दो शब्दों पर सायण इस लिये घबराया प्रतीत होता है कि आर्येतिहास में सूर्य का पुत्र मनु कहा है। यहां मन्त्र में मनु नाम पहले था और सूर्य शब्द पीछे। इस उलझ से बचने के लिये उस ने इन शब्दों का तो सामान्य धात्वर्थ कर दिया, पर अगली बात वैसी ही रखी।

(२) सायण के अनुसार इन्द्र मनुष्य था वा देवता ? मनुष्य तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे मन्त्र में वह यह कहता है कि 'मैंने शम्बर के नगर नष्ट किये।' उस के अनुसार वेद में अन्यत्र यह वर्णन देवता का ही है। यदि इन्द्र देवता है तो जब उस ने यह मन्त्र बोला होगा तो क्या मनु, कक्षी-वान् आदि ऋषि हो चुके थे ? दूसरे मन्त्र में 'आर्याय' के साथ सायण ने 'मनवे' जोड़ दिया है अर्थात् "मैंने आर्य मनु को भूमि दी।" यह मन्त्रन्तर के आदि में हुआ होगा। तब कुत्स आदि न थे। फिर प्रथम मन्त्र में क्रिया का प्रयोग वर्तमानकाल में है, और इन्द्र कहता है कि मैं कुत्स हूं। यह समस्या तो वैसी ही उलझी रही। जो कोई अज्ञान से यह कह दें कि सब मन्त्रों में वही व्यक्ति पुनः २ आते हैं और देवता सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं तो इस में कोई प्रमाण नहीं। वैसे भी यह असम्भव है क्योंकि ऐसा होने पर किसी की मुक्ति ही न होगी।

(३) जब सायणानुसार यह ऋचाएं वामदेव ने गर्भ में बोली थीं तो “मन्दसानः—सोमेन माद्यन्।” गर्भ में उस वामदेव को सोम का मद कहां से चढ़ गया था। यदि कोई कल्पना करे कि वामदेव को तो उस बात का ज्ञानमात्र हुआ था, तो हम कहेंगे इन्द्र को भी ज्ञान ही होना चाहिये। ऐसी दशा में पहले मन्त्र में ‘अस्मि’ अर्थात् ‘मैं हूँ कक्षीवान्’ वर्तमानकाल में कहना निर्धक हो जायगा। कोई कुछ ही करे, पाश्चात्यों और सायण का अनुकरण करने वालों को यहां बड़ी आपत्ति है।

दयानन्द सरस्वती का अर्थ।

(१) मैं (ईश्वर) मननशील हूँ (व्यत्यय से) और सर्वप्रकाशक, मैं सब वृष्टि की कक्षा=परम्परा से युक्त, मन्त्रार्थवित् मेधावी हूँ। मैं सरल विद्वान् से उत्पन्न किये गये वज्र को सिद्ध करता हूँ। मैं सब का हिती, पूर्ण विद्वान् हूँ, मुझे (योग से) देखो।

(२) मैं धार्मिक राजा को भूमि देता। मैं दानशील मनुष्यों के लिये वृष्टि प्राप्त कराऊं। मैं प्राण प्राप्त कराऊं। कामना करते हुए विद्वान् लोग, बुद्धि के लिये मुझे प्राप्त होते हैं।

(३) मैं आनन्दस्वरूप प्रथम, मेघ के असंख्य प्रवेशों में उत्पन्न निश्चावें पदार्थों को साथ प्रेरणा करूँ। सब मैं मिलने योग्य (जगत् में) जो प्रकाशदाता अतिथियों को प्राप्त (उसकी) रक्षा करूँ (उसे जानो)।

यही एक अर्थ जो पूर्वोक्त सब आक्षेपों से रहत है। इस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। इस के अनुसार इन मन्त्रों की रचना किसी ऋषि की नहीं कही जा सकती, प्रत्युत यह रचना तो ऋषियों के ऋषि, परमार्थ परमात्मा की अपनी है। (प्रश्न) गीता में भी तो इसी प्रकार की रचना है, क्या वह भी ईश्वर की ही है?

(उत्तर) भगवद्गीता तो अभी कल की पुस्तक है। व्यास इस के रचयिता थे। इस नये काल की तो वैदिक काल से तुलना ही नहीं हो सकती। और श्रीकृष्ण ने परमात्मा को जान कर अपने में परमात्मा की ओर से अहंभाव धारण किया था। (प्रश्न) शतपथ ब्राह्मण में तो यही कहा है कि ऋषि वामदेव ने यह मन्त्र कहा था।

(उत्तर) शतपथ का सारा पाठ देखो—

ब्रह्म वाऽइदमग्रऽआसी् । तदात्मानमेश्ववेदहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्
सर्वमभवत्तयोयो देवानां प्रत्यवृत्यत स एव तदभवत्तथऽपर्णग्णां तथा मनुष्याणाम्॥१॥
तद्वैतत् पश्यन्तृष्णिर्वामदेवः प्रतिपेदे। अहंमनुरभव॑७७ सूर्यदच्चेति तदिदमप्येतर्हि
य एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इद॑७७ सर्वं भवति । कां० १४ । प्र० ३ । वा० १ ॥

“ब्रह्म ही इस स्थाप्ति के आरम्भ में था। वह अपने को सदा जानता हुआ, मैं ब्रह्म हूं। उस के सामर्थ्य से सब जगत् उत्पन्न हुआ। विद्वानों में से अविद्यानिद्रा से उठकर जो ब्रह्म को ऐसा जानता है वही उस का आनन्द पाता है। ऐसे ही ऋषियों और मनुष्यों में से (जो अविद्यानिद्रा से जागता है, वह ब्रह्मसुख

को प्राप्त होता है) उस ही ब्रह्म को देखता हुआ, वामदेव ऋषि उसे प्राप्त हुआ। (वामदेव को यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि) मैं मनु था, मैं सूर्य था। सो अब भी जिसे यह विज्ञान होवे कि मैं ब्रह्मस्थ हूं, वह इस सर्वज्ञान और सर्वसुख को पाता है।” यह है अर्थ ब्राह्मण की श्रुति का। यहाँ यही लिखा है कि वामदेव को ज्ञान हुआ कि मैं मनु था, मैं सूर्य था। वह पहले जन्मों में इन नामों से प्रसिद्ध हुआ होगा। यहाँ सारा मन्त्रनहीं दिया। ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्रतीक प्रायः अपने ही वेद वा शाखा की धरी जाती है। अन्य वेदों के मन्त्र सारे उद्धृत होते हैं। सो यह मन्त्र ऋग्वेद का है, पर यहाँ शतपथ में इस की प्रतीकमात्र है। इसी से निश्चय होता है कि यद्यपि वामदेव ऋषि तो सारे मन्त्रों का था, पर अपने सम्बन्ध में उसे इतना ही ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मैं पहले जन्मों में मनु और सूर्य था। यदि याज्ञवल्क्य का अभिप्राय सारे मन्त्रस्थ पदों से होता, तो वह सारा मन्त्र दे देता। तथाच यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वामदेव को ज्ञानमात्र हुआ, और वह वेद मन्त्र के कुछ शब्दों द्वारा प्रकट किया गया। वेद मन्त्रों के पदों को लेकर अनेक कार्य ऐसे ही चलाये जाते हैं। जैसे अब भी कोई कह देता है—“सत्यं ब्रवीमि” (ऋ० १०।१।१७।६) इति। मैं सत्य कहता हूं, इत्यादि। अहमेव स्वयमिदं वदामि (ऋ० १०।१२।४।५) इति। मैं ही स्वयं यह कहता हूं। न ही वामदेव ने यह मन्त्र बनाया और न सायणानुसार उस ने इन्द्ररूप से स्तुति की।

(प्रश्न) यह बड़े आश्र्य की बात है कि अनादि वेद के अनुसार ही पहले दो जन्मों में उस का नाम हुआ।

(उत्तर) आश्र्य नहीं है। नाम संसार में थोड़े से हैं। उन्हीं से सब काम चलाया जाता है। जहाँ र आर्य सभ्यता है, वाथी वा होगी वहाँ ऐसे ही नाम होंगे। सो पिछले जन्मों में कभी कभी उस के यह नाम होगये इस में कोई आश्र्य नहीं।

(प्रश्न) एतरेय आरण्यक में वामदेव के सम्बन्ध में क्या लिखा है?

(उत्तर) “तदुक्तमृषिणा । गर्भे नु सञ्चन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीरक्षन्नध श्येनो जबसा निरदीयम् (ऋ०४ २७।१) इति गर्भ एवत्तच्छयानो वामदेव एवमुवाच । स एवं विद्वान्………अमृतः समभवत्समभवत् ॥” २।५॥

“अर्थात् ऋषि=वेद वा परमात्मा से कहा गया। ‘गर्भ में वर्तमान मैं इन पृथिव्यादिकों वा विद्वानों के सब जन्मों को जानता हूँ। अनेकों लोहमयी नगरियाँ मेरी रक्षा करती हैं। तदनन्तर मैं श्येन=वाज पक्षी के वेग के समान (इस शरीर से) निकलूँ।’ गर्भ में ही वास करते हुए वामदेव ऐसे बोला। वह (वामदेव) ऐसे जानता हुआ इस शरीर के क्षय होने पर अमृत होगया।” यहाँ तो स्पष्ट पहले ‘ऋषिणा’ और अन्त में ‘वामदेव एवमुवाच’ कह कर भेद प्रकट कर दिया है कि वेद में ऐसा आया है। ऋषि का वेदार्थ सुप्रसिद्ध है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ र भी ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वेद वा परमात्मा के अभिप्राय से ही है। उसी वेदान्तर्गत

तथ्य को वामदेव ने जाना, और जान कर वह भी उसी मन्त्र के द्वारा अपना भाव प्रकट करता हुआ। अनेक लोगों का कहना है कि वामदेव को गर्भ में ही सब जन्ममरण सम्बन्धी रहस्यों का ज्ञान हो गया, * यह सम्भव हो वा न हो, परन्तु इतना तो सम्भव और सत्य है कि योगशक्ति द्वारा कोई सिद्धयोगी अपने चित्त को किसी गर्भस्थ जीव के चित्त का स्वामी यना के गर्भ की सारी दशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

यदि यह वाक्य वामदेव का रचा होता तो आरण्यक पाठ में दो बार पूर्व-प्रदर्शित ‘उक्तम्’ और ‘उवाच’ क्रियाएं न आतीं। वहाँ तो स्पष्ट यही कहा है कि जैसे वेद में कहा है, वैसे ही वामदेव बोला। इसी भाव से इस और ‘अहं मनुरभवम्’ (ऋ०४१२६॥) को ध्यान में रख के कृष्णद्रैपायन व्यास भगवान ने कहा था—

“शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥” १।१।३०।

अर्थात् इन मन्त्रों में उपदेश परमात्मा की ही और से है। ये मन्त्र वामदेव के रचे नहीं हैं।

इस मन्त्र पर आ०वै० कथि की टीका और टिप्पणी।

ऐतरेय आरण्यक का भाष्य करते हुए कीथ ने लिखा है—

* सायण ने अर्थव॑ १८।३।१५ में भी यही लिखा है—“गर्भविस्थ पव सन् उत्पन्नत्वज्ञानः स्वस्य सार्वात्म्यम् अनुसंदध्नौ ।”

A poet says (RV. IV, 27, 1), ‘within the womb,
I learned all the races of these gods. A hundred brazen
forts restrained me, but like a hawk I escaped swiftly
downward. Vamdeva lying in the womb thus declared.
this. Knowing this.....he became immortal”

इसी मन्त्र पर यह कीथ की टिप्पणी है—(तीन जन्मों के) प्रसंग
में यह ऋूषि बहुत अस्पष्ट है। शङ्कर, आनन्दतीर्थ और सायण
ने कहा है कि इस मन्त्र में मुक्ति प्राप्ति से पूर्व के वामदेव के असंख्य
जन्मों का वर्णन है। इस वाक्य से यह अर्थ नहीं निकल सकता।
पूर्वापर प्रकरण से यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वामदेव
को आत्मा के तीन जन्मों का ज्ञान हुआ और वह अमृत हो
गया। मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद् लिखने वाले को
स्पष्ट ही अज्ञात है। यदि ज्ञात था, तो यह स्पष्ट किया जाता।”

यह है सम्मति कीथ की, जो इडलैण्ड का उच्चकोटि का
वैदिक विद्वान् समझा जाता है। वह यहां ‘ऋषि’ का ‘पोइट’
अर्थ करता है। वैदिक इण्डैक्स में भी उस ने यही अर्थ स्वीकार
किया है। पर वह धात्वर्थ को जानता हुआ भी अपने अनार्ष
संस्कार के कारण उसे छिपा रहा है। “सप्त ऋषयः प्रतिहिता
शरीरे।” य० ३४। ५५। इस वेद वचन का वह क्या अर्थ
करेगा? उस के भाइयोंने बहुत यत्र किया, पर वह भी कुछ
नहीं कर सके। सर्वोत्तम द्रष्टा होने से परमात्मा का नाम भी
ऋषि है। इस का विशेष व्याख्यान मेरी बनाई ऋग्मन्त्रव्या-
ख्या पृ० ४३, ४४ में देखो। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आर-

एयक आदि ग्रन्थों में ऐसे स्थलों पर कृषि शब्द का अर्थ परमात्मा वा वेद है।

आरण्यक के प्रकरण में यह ऋचा अस्पष्ट नहीं है। वहाँ यही कहा है कि आत्मा पुरुष (पिता) से निकल कर स्त्री (माता) के गर्भाशय में जाता है। यह आत्मा का प्रथम जन्म है। पुनः माता के गर्भ से बाहर आता है। यह दूसरा जन्म है। फिर सब कृत्य आदि करके आयु गोंग कर चल देता है। चलते ही पुनः मनुष्य के वीर्य में भोजन आदि द्वारा प्रवेश करता है। वेद में परमात्मा ने शिक्षा दी है—“अपो वा गच्छ यदि तत्रते हितमोषधीषु प्रतिंतिष्ठा शरीरैः ।” ऋ०२० । १६ । ३ अर्थात् एक शरीर को त्याग कर यह आत्मा जल वा श्राणों में जाता है, अथवा ओषधियों में जाता है। वहाँ से पुनः पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। यही मानों इस आत्मा का तीसरा जन्म है। अपने और अन्य देवों=विद्वानों के इन्हीं सब जन्मों को वामदेव जानता गया।

वामदेव को इन सब वातों का ज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान योगद्वारा किसी गर्भस्थ बालक में चित्तस्थिति करके हो गया। सो वह मुक्त हुआ, हाँ मुक्त हुआ। मुक्ति और पुनर्जन्म का वर्णन वेद और उपनिषद् आदि शास्त्रों में बड़े स्थलों पर आया है। ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य और उनके अन्य ग्रन्थों में भी इन विषयों का वेदप्रमाणों द्वारा प्रतिपादन किया है। जब तक उनके खण्डन का कोई साहस न करे, उसे इस विषय में कुछ कहना ही न चाहिये।

और कीथ आदि पाश्चात्य लेखकों का ऐसा लेख कि 'मुक्ति का सिद्धान्त तो इस उपनिषद् लिखने वालों को स्पष्ट ही अ-ज्ञात था' मिथ्या प्रलाप है। क्योंकि वेद से लेकर अन्य सब आर्षशास्त्रों में अमृत होना मुक्ति का ही पर्याय है। "अमृतत्वाय गातुम् ।" ऋू० १.७२.८ में स्पष्ट मोक्ष प्राप्ति के लिये कहा है। पुनश्च "शमीभिरमृतत्वमाशुः ॥" ऋू० ४।३।४ शुभ कर्मों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जीवात्मा तो वैसे भी अमृत है, पर जन्ममरण के बन्धन=मर्त्यावस्था से पृथक् होकर ब्रह्म में स्वेच्छा पूर्वक विचरने को अमृतावस्था वा मोक्ष कहा है। मैं इन लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे ब्रह्मचर्य पूर्वक दो तीन वर्षों तक किसी सदुपदेष्टा अध्यात्मवादी गुरु के समीप वास करें, पुनः देखें कि उपनिषदों का क्या सिद्धान्त है।*

ज्ञान—सूक्तम् ।

ऋग्वेद १.०७१ सूक्त का विषय ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान का मनुष्यजीवन पर क्या प्रभाव है, ज्ञान का क्या फल है, इत्यादि विषयों का इस सूक्त में अत्यन्त सुन्दर और रुचिकर वर्णन है। चिरकाल से आर्य ऋषि इस सूक्त की महिमा गायन करते आये हैं। आर्य विद्वानों ने भी इस के अर्थ

* वामदेव सम्बन्धी इन्हीं विषयों पर छन्दोग्यभाष्य में ४० २८४—२८८ तक शिवशङ्करजीने भी समीक्षात्मक लेख लिखा है। मैं उस की बहुत घातों से विभिन्नमति रखता हूँ। पाठक दोनों लेखों को पढ़ के स्वयं विचार करें।

का गौरव अनुभव किया है। वर्तमानकाल में इसका असाधारण महत्व बताना परिणत राजाराम ही के भाग्य में आया है। उन्होंने ही चार वर्ष हुए स्व-ध्याख्या-सहित यह सूक्त मुझे सुनाया था। अब हम उसी ज्ञानसूक्त के कतिष्य मन्त्र यहाँ धरेंगे।

इस सूक्त के विषय में सर्वाक्रमणी का वचन है—

“बृहस्पते बृहस्पतिर्ज्ञानं तुष्टाव नवमी जगती ॥” स्वामी हरिप्रसाद ने न जाने किस ‘प्रज्ञासागर’ के संस्करण से वेद सर्वस्व के पृ० १० पर सर्वानुक्रमणी का यह पाठ ऐसे उद्धृत किया है—“बृहस्पते, एकादश, बृहस्पतिर्ज्ञानं त्रिष्टुप्, नवमी जगती”। ‘एकादश’ मन्त्र-संख्या की तो पिछले सूक्त से अनुदृति आर्ती थी, तब भला इस को मूलपाठ में घुसेड़ने की क्या आवश्यकता थी? पुनः “बृहस्पतिर्ज्ञानं त्रिष्टुप् ।” इस का तो अर्थ ही नहीं बनता। सर्वानुक्रमणी की परिभाषा है “(अनादेश) त्रिष्टुप्छन्दः” ॥ १२८६ अर्थात् ‘जहाँ त्रिष्टुप् छन्द हो यहाँ कुछ नहीं कहा गया,’ पुनः ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा के विरुद्ध पाठ देने से तो यही झात होता है कि उद्धृत करने वाले ने ध्यान से अन्य पढ़ा ही नहीं। पूर्व सूक्त से यहाँ मन्त्रों की संख्या की अनुदृति अंगी है। अर्थात् ‘(इस सूक्त में ११ मन्त्र हैं) प्रथम पद ‘बृहस्पते’ है। बृहस्पति नाम परमात्मा, और पश्चात् किसी देहधारी ऋषि ने इस सूक्त द्वारा ज्ञान-स्तुति की है। (अनुकू

छन्द होने से) छन्द 'त्रिष्टुप्' समझना, पर नवम मन्त्र 'जगती' छन्द वाला है ।'

प्रथम मन्त्र ।

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्पैरतनामधेयं
दधानः। यदेषां श्रेष्ठं यद्विष्मासीत्प्रेणातदेषां निहितं
गुहाविः ॥

अर्थ—(बृहस्पते) हे वाणियों के स्वामिन् ईश्वर ! (यत्) जिस (प्रथमम्) आदिम (वाचः) वाणी के (अग्रम्) मूल को (नामधेयम्, दधानाः) नामादि रखते हुए [विद्वान्] (प्र, ऐरत) उच्चारण करते हैं । (यत्) जो (ऐषाम्) इन सब से (श्रेष्ठम्) उत्तम (यत्) जो (अरिप्रम्) दोषरहित (आसीत्) है, (तत्) वह (ऐषाम्) इन [ऋषियों] की (गुहा) बुद्धि में (निहितम्) छिपी रहती है । (प्रेणा) [वही ईश्वर के साथ] प्रेम से (आविः) प्रकाशित होती है ।

इस प्रथम मन्त्र में ज्ञान की प्रशंसा की गई है । ज्ञान यहाँ वाक्=ईश्वरीय वाक् का पर्याय है । अन्यत्र यजुर्वेद में परमात्मा कहता है “यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।” यजुः० २६।२ ‘जैसे इस कल्याणी वाणी को मैं बोलता हूं, सब जनों के लिये ।’ जब २ मनुष्यों को निर्मल और गम्भीर ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जब २ इम्हों ने संसारस्थ अनेक फदार्थों

का नामकरण करना होता है, तभी २ वे इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आदि में परमात्मा शब्दार्थसम्बन्धरूप से इस वाणी को ऋषियों के अन्दर प्रकाशित करता है और पीछे उसी का अर्थज्ञान कराता रहता है। अब मन्त्रस्थ पदों को देखो। इस वाणी के यह २ गुण कहे हैं।

(१) 'प्रथमम्' आदिभ वाणी है।

(२) 'वाचः, अग्रम्' आज जितनी मानव वाणियां संसार में हैं, उन सब का मूल है। वेदवाणी ही से सब भाषाएँ निकली हैं और वेद-वाणी का भी मूल 'ओम्' है।

(३) आदि सृष्टि में जब २ पदार्थों के नाम रखने की आवश्यकता होती है, तब यही वाणी सहायकारी होती है।

(४) 'श्रेष्ठम्' जो सर्वश्रेष्ठ वाणी है। बड़ी विस्तृत, बड़ी विशाल, मानवबुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित नियमों से कहीं परे, दिव्य रूपों में उपस्थित है।

(५) 'अरिप्रम्' दोषरहित है। सब संसार के लिये एक सी। किसी देश विशेष की भाषा नहीं।

(६) 'गुहा, निहितम्' वह गुहा, ऋषियों की बुद्धियों में थी।

(७) 'प्रेणा, आविः' अनेक जन्म जन्मान्तरों में जो परमात्मा के साथ प्रेम करते आये हैं उन के अन्दर से प्रकाशित होती है। उनकी अपनी बनाई नहीं।

वेदवाणी का कितना दिव्य वर्णन है ? यह आन्तरिक सत्त्वी है, जिसकी कसौटी पर वेद मानव रचना से परे छला जाता है । * तीसरा मन्त्र इस बात को और भी व्यक्त करता है—

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तमन्वविन्दन्तृष्णु
प्रविष्टाम् । तामाभृत्या अदधुःपुरुत्रा तां सप्तरेभा
अभि संनवन्ते । ऋ० १० । ७१ । ३ ।

अर्थ—(यज्ञेन) परमात्मा की कृपा से (वाचः) वाणी की (पदवीयम्) प्राप्ति की योग्यता को (आयन्) [जब मनुष्य] प्राप्त होते हैं [अर्थात् मानवजन्म धारण करके विचार के योग्य होते हैं] (ताम्) [तव] उस वाणी को (अनु, अविन्दन्) अनुकूलता से प्राप्त करते हैं, [कहां से ? उत्तर,] (ऋषिषु प्रविष्टाम्) ऋषियों—वेदार्थवेत्ताओं में प्रविष्ट हुई हुई को । (ताम्, आभृत्य) उस वाणी को लेकर (वि, अदधुः) फैलाते हैं (पुरुत्रा) बहुत—सब स्थलों में, (ताम्) उस वाणी को (सप्तरेभाः) सात स्तोता(सम्, नवन्ते) स्तुति करते हैं ।

इस मन्त्र में तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि—
(१) ‘ऋषिषु प्रविष्टाम्’ ऋषियोंमें प्रविष्ट हुई वाणी को उन्होंने

* इस मन्त्र पर ऐतरेय आरण्यक १।३।३ में विचार किया गया है । पाठक उसे भी देखलें ।

पाया। वह ऋषियों की अपनी वाणी न थी, प्रत्युत कहीं से उन में आगई थी। तब भला उस वाणी में होने वाले वेद मनुष्य-रचित कैसे हो सकते हैं?

(२) जब २ ऋषि उत्पन्न होते हैं, तब २ वेदार्थ खुलता है, और वह सब मनुष्यों में फैला दिया जाता है। आदि सृष्टि से यह होता आया है। अब भी जब कि संसार में वेद का सत्यार्थ लुप्त हो चुका था, दयानन्द ऋषि ने आकर पुनः सत्यार्थ के फैलाने की चेष्टा की है। उसी महात्मा के परिश्रम के कारण मेरे जैसे साधारण व्यक्ति भी इस मार्ग में लग रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वल्प काल में ही पूर्व और पश्चिम के पाठक जो सम्प्रति वेद का अनर्थ कर रहे हैं, सत्यार्थ को लेंगे और वेद पुनः सर्व स्थलों में फैला दिया जायगा।

यह है वेद की एक दो आन्तरिक साक्षियां, जिन के सहारे पर कहा जा सकता है कि वेद की रचना मानव मन, कर्म और वाणी से परे है, हाँ बहुत परे है।



